



Since 1962

होटल प्रबंध, केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान

लाईब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली - 110012 (भारत)

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)

Institute of Hotel Management, Catering & Nutrition

Library Avenue, Pusa, New Delhi-110012 (India)

(An autonomous body under Ministry of Tourism, Govt. of India)

(Sponsored by the
Ministry of Tourism,
Government of India)

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

Annual Report
2021-22





Since 1962

होटल प्रबन्ध केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, पूसा, नई दिल्ली-110012
(पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
(राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग परिषद् एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित)

वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट

1. संक्षिप्त इतिहास और प्रस्तावना:

- 1.1 होटल प्रबन्ध केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, पूसा, नई दिल्ली एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। यह उन संस्थानों में से एक है जो भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय के अधीन है। देश में प्रथम HACCP प्रमाणित संस्थान है संस्थान ने एक नई शुरूआत की है जिसमें कि आई.एस.एस.एन. पंजीकरण सहित जर्नल का शुभारम्भ किया (ISSN-2395020X)।
- 1.2 संस्थान ने वर्ष 1962 में एक छोटी सी इमारत में मामूली शुरूआत की थी। वर्ष 1967-68 में ये संस्थान वर्तमान परिसर में आ गया जिसमें अध्यापन खण्ड, होस्टल और स्टाफ फ्लैट्स शामिल है। नये अध्यापन खण्ड वर्ष 1986-87 में शामिल किए गए।
- 1.3 संस्थान ने विगत वर्षों में लगभग हजारों छात्रों को प्रशिक्षण दिया है। जिनमें से अधिकतर आतिथ्य सत्कार संस्थाओं, होटलों तथा अन्य होटल प्रबन्ध संस्थानों में कार्यरत हैं। संस्थान में प्रतिवर्ष 1000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पड़ोसी देशों तथा विकासशील देशों के छात्र भी संस्थान में प्रशिक्षण लेते हैं। विदेश मंत्रालय के ITEC कार्यक्रम के अन्तर्गत रूस, कजाकिस्तान, मॉरीशस, मालदीव, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान तथा सीरिया के छात्रों को भी संस्थान ने होटल प्रबन्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के पश्चात् संस्थान दक्षिण पूर्व तथा मध्य एशिया के होटल प्रबन्ध तथा आतिथ्य सत्कार उद्योगों में अपनी प्रशिक्षण सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है।
- 1.4 आतिथ्य शिक्षा की औद्योगिक प्रवृत्तियों को अपनाने के उद्देश्य से और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार संस्थान के पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है।

2. प्रबन्धन ढांचा/शासक मण्डल

- 2.1 संस्थान का प्रबन्ध एक स्वायत्त सोसायटी द्वारा चलाया जाता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। संस्थान का संगठन वार्षिक रिपोर्ट के आंतरिक पृष्ठों में दिखाया गया है। पर्यटन, शिक्षा तथा वित्त मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रीय परिषद् होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनॉलाजी, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि और होटल उद्योग के विशेषज्ञ इस बोर्ड के सदस्य हैं तथा सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार (पर्यटन) इसके अध्यक्ष हैं।
- 2.2 संस्थान के दिन प्रतिदिन का प्रशासन, प्रधानाचार्य द्वारा चलाया जाता है जोकि शासक मण्डल के सचिव भी है। वो शासक मण्डल की देखरेख एवं निर्देशों पर कार्य करते हैं। प्रधानाचार्य की सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी, योग्यता प्राप्त अनुभवी प्रध्यापक एवं अन्य प्रचालन प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं।

3. अध्ययन के पाठ्यक्रम

3.1 वर्ष के दौरान, संस्थान निम्नलिखित पूर्णकालिक व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। जो कि राष्ट्रीय होटल प्रबंध परिषद् एवं केटरिंग तकनीक द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

- (क) एम.एस.सी. (आतिथ्य प्रशासन)- इस एंव राष्ट्रीय होटल प्रबंध परिषद् के अन्तर्गत यह 2 वर्षीय (चार सत्रीय) पूर्णकालिक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।
- (ख) बी.एस.सी. (होटल एवं होस्पिटैलिटी प्रबंध) तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम यह एक व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य होटलो, रेस्तराओं, फ्लाइट किचनों तथा अन्य खान-पान सेवा प्रतिष्ठानों के लिए प्रबंधन, निरीक्षक एवं वरिष्ठ कार्यपालक उपलब्ध कराना है।
- (ग) फूड एवं बेवरेज में 1 ½ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- (घ) बेकरी एवं कन्फैक्शनरी में 1 ½ वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- (ङ) खाद्य उत्पादन एवं पेटिसरी में 1 ½ वर्षीय क्राफ्ट पाठ्यक्रम।

3.2 इसके अतिरिक्त संस्थान में विभिन्न अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं।

4. प्रवेश की प्रक्रिया:-

4.1 द्विवर्षीय एम.एस.सी. (आतिथ्य प्रशासन) में प्रवेश हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है और लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट द्वारा केंद्रीकृत परामर्श के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उन्होंने बी.एस.सी. आतिथ्य और होटल प्रशासन में या एनसीएचएमसीटी से होटल प्रबंधन में डिप्लोमा या एनसीएचएमसीटी से होटल प्रबंधन में कोई अन्य डिग्री + डिप्लोमा एवम् न्यूनतम दो साल के कार्य अनुभव के साथ।

4.2 त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश राष्ट्रीय होटल प्रबंध परिषद् द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। अभ्यर्थियों को एक अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 28 वर्ष है। पाठ्यक्रम में 15% सीटें अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)- गैर-क्रीमी लेयर (केन्द्रीय लिस्ट के अनुसार), 10% (सामान्य-ईडब्ल्यूएस), कश्मीरी प्रवासी के लिए आरक्षण (शिक्षा मंत्रालय से अधिसूचना के अधीन) एवम् 5% विकलांग वर्ग (40% या इससे अधिक विकलांगता) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

4.3 1 ½ वर्षीय खाद्य उत्पादन एवं पेटिसरी के कोर्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को 10+2 प्रणाली में 10 वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष एक जुलाई तक परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 01 जुलाई को 28 वर्ष है। पाठ्यक्रम में 15% सीटें अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)- गैर-क्रीमी लेयर (केन्द्रीय लिस्ट के अनुसार), 10% (सामान्य-ईडब्ल्यूएस),

कश्मीरी प्रवासी के लिए आरक्षण (शिक्षा मंत्रालय से अधिसूचना के अधीन) एवम् 5% विकलांग वर्ग (40% या इससे अधिक विकलांगता) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

- 4.4 1 ½ वर्षीय खाद्य एवं पेय सेवा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को 10+2 प्रणाली में 12 वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 01 जुलाई को 28 वर्ष है। पाठ्यक्रम में 15% सीटें अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)- गैर-क्रीमी लेयर (केन्द्रीय लिस्ट के अनुसार), 10% (सामान्य-ईडब्ल्यूएस), कश्मीरी प्रवासी के लिए आरक्षण (शिक्षा मंत्रालय से अधिसूचना के अधीन) एवम् 5% विकलांग वर्ग (40% या इससे अधिक विकलांगता) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
- 4.5 1 ½ वर्षीय बेकरी एवं कनफैक्शनरी कोर्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी 10+2 प्रणाली में 12 वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 01 जुलाई को 28 वर्ष है। पाठ्यक्रम में 15% सीटें अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)- गैर-क्रीमी लेयर (केन्द्रीय लिस्ट के अनुसार), 10% (सामान्य-ईडब्ल्यूएस), कश्मीरी प्रवासी के लिए आरक्षण (शिक्षा मंत्रालय से अधिसूचना के अधीन) एवम् 5% विकलांग वर्ग (40% या इससे अधिक विकलांगता) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

5. शैक्षणिक प्रगति:

होटल प्रबंध केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, पूसा, नई दिल्ली – 110012

छात्रों का शैक्षणिक सत्र 2020-2021 का विकसित आंकड़ा

S.No	Course	Appeared		Result	Appeared		Result
		Odd Sem	Passed		Even Sem	Passed	
1	B.Sc (HHA) 1st & 2nd Semester	304	304	100%	304	299	98.35%

S.No	Course	Appear	Pass	Result
2	B.Sc (HHA) 3 rd & 4 th Semester (2 nd year)	258	250	96.89%

S.No	Course	Appeared		Result	Appeared		Result
		Odd Sem	Passed		Even Sem	Passed	
3	B.Sc (HHA) 5th & 6th Semester	240	239	99.58%	242	241	99.58%
4	CCFP 1st & 2nd Semester	99	97	97.97%	99	97	97.97%

S.No	Course	Annual Result					
					Appeared	Passed	Result
5	Diploma in Bakery & Confectionary				76	75	98.58%
6	Diploma in Food & Beverage Service				36	36	100%

6. परीक्षाएँ

वार्षिक परीक्षाओं का संचालन राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनीक परिषद, नोएडा एवं इसू द्वारा किया जाता है।

7. नियोजन

संस्थान कॉलेज में कैपस प्लेसमेंट की मेजबानी करता है। पिछले शैक्षणिक सत्र में, बी.एस.सी(एच.एच.ए.) के छात्रों को प्रबंधन और कार्यकारी स्तर की पेशकश की गई। संस्थान में महामारी के परीक्षण समय में 85.47% का प्लेसमेंट प्रतिशत रहा है। संस्थान में कैपस प्लेसमेंट के लिये क्यूएसआरएस, ई-कॉमर्स, होटल, रिटेल और कई अन्य क्षेत्रों से आए। औसत पैकेज रु. 4.4-5.0 लाख प्रति वर्ष और उच्चतम पैकेज रु 7.8 लाख प्रति वर्ष था।

8. सूचना का अधिकार (अधिनियम)

8.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.ihmpusa.net पर उपलब्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थान ने निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियुक्त किया है।

- | | |
|---|--------------|
| 1. श्री कमल कांत पंत, प्रधानाचार्य | अपील अधिकारी |
| 2. श्री उमेश कुमार अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी | सी.पी.आई.ओ |
| 3. सुश्री मन्जू बाला, कार्यालय अधीक्षक | ए.पी.आई.ओ |

सूचना का अधिकार अधिनियम की वार्षिक विवरणिका अधिसूचना प्रणाली

8.2 RTI वार्षिक रिटर्न सूचना प्रणाली (2021-2022)

वार्षिक विवरण पत्र

होटल प्रबंध क्वेटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, पूसा, नई दिल्ली – 110012

Progress in 2021-2022													
	Opening Balance as on beginning of 1 st quarter (Apr-2)June-20)			No. of Applications received as transfer from other Pas u/s 6(3)		Received during the quarter (Including cases transferred to other pas)		No. of cases transferred to other pas u/s 6(3)		Decisions where requests/appeals rejected		Decision where requests/appeals accepted	
Requests	0			25		05		0		0		30	
First Appeals	N/A			0		0		N/A		0		0	
No. of Cases where disciplinary action taken against any officer													
No. of CAPIO's designated					No. of ACPIO's designated					No. of AA designated			
1					1					1			
No. of time various provisions were invoked while rejecting requests													
Relevant Sections of RTI Act 2005													
section 8(1)										Sections			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	Other
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount of Charges Collected (in Rs.)													
Registration Fee Amount					Additional fee & Any other charges					Penalties Amount			
50					-					-			

9. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सत्र 2021-2022)

"सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण" की योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय की स्व-प्रेरणा पहल के हिस्से के रूप में, होटल प्रबंध केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, पूसा, नई दिल्ली ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को लागू किया है:

9.1 "हुनर से रोज़गार तक" (एच.एस.आर.टी.)

हुनर से रोज़गार तक कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना है जिनके पास अधिक साधन नहीं हैं और जिन्हें रोज़गार के लिए उचित कौशल हासिल करने की आवश्यकता है। यह कोर्स पूरी तरह से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 18 वर्ष से अधिक की आयु और संबंधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इस पाठ्यक्रम में भाग लिया जा सकता है।

हुनर से रोज़गार तक के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान द्वारा इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों चलाये जा सकते हैं।

पाठ्यक्रम का नाम	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण) नौकरी पर प्रशिक्षण + प्रदाता द्वारा (OJT)	जॉब रोल को योग्यता पैक नंबर में मैप किया गया	कार्यक्रम के सफल समापन पर वजीफा/प्रोत्साहन का भुगतान
मल्टी कुजीन कुक	8 वीं कक्षा पास	740घंटे (500घंटे 240 + घंटे ओजेटी)	QP:THC/Q3006	Rs. 2000/-
एफ एंड बी सेवा स्टीवर्ड -	10 वीं कक्षा पास	540घंटे (3 00घंटे 240 + घंटे ओजेटी)	QP:THC/Q0301	Rs. 1500/-
रूम अटेंडेंट	5 वीं कक्षा पास	540 Hours (300 Hours + 240 Hours OJT)	QP:THC/Q0202	Rs. 1500/
फ्रंट ऑफिस एसोसिएट	12 वीं कक्षा पास	540घंटे (3 00घंटे 240 + घंटे ओजेटी)	QP: THC/Q0102	Rs. 1500/
लॉन्ट्री मशीन ऑपरेटर	8 वीं कक्षा पास	480घंटे (24 0घंटे 240 + घंटे ओजेटी)	QP: THC/Q0205	Rs. 1500/
रसोईघर स्टीवर्ड	5 वीं कक्षा पास	440घंटे (2 00घंटे 240 + घंटे ओजेटी)	QP: THC/Q0401	Rs. 1500/
होम डिलीवरी बॉय	8 वीं कक्षा पास	440घंटे (2 00घंटे 240 + घंटे ओजेटी)	QP: THC/Q2902	Rs. 1500/
पारंपरिक स्लैक और सेवरी मेकर	8 वीं कक्षा पास	240घंटे	QP: FIC/Q8501	Rs. 1500/

"हुनर से रोज़गार तक" (एच.एस.आर.टी.) के आंकड़े - वर्ष 2021-22

क्र.सं .	स्ट्रीम जिसमें HSRT चलाया गया था	लक्ष्य प्राप्त	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1	फ्रंट ऑफिस एसोसिएट	120 (HSRT) + 60 (गंतव्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम) किसी भी स्ट्रीम में	11
कुल			11

9.2 "कौशल परीक्षण प्रमाणन" (एस.टी.सी)

एसटीसी - स्किल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य खाद्य उत्पादन, खाद्य और पेय सेवा और हाउसकीपिंग यूटिलिटी में आतिथ्य संबंधी व्यवसायों में पहले से कार्यरत / लगे हुए व्यक्तियों का पुनः कौशल / कौशल उन्नयन करना है।

पाठ्यक्रम की अवधि आठ घंटे प्रतिदिन 06 दिनों की है जिसमें संबंधित ट्रेडों में 5 दिनों के लिए प्रशिक्षण और उसके बाद छठे दिन कौशल परीक्षण भी शामिल है। वेतन हानि की पूर्ति के लिए उम्मीदवार को रु.1800/- का प्रोत्साहन/वजीफा प्रदान किया जाता है।

"कौशल परीक्षण प्रमाणन" (एस.टी.सी) के आंकड़े - वर्ष 2021-22

क्र.सं .	स्ट्रीम जिसमें STC चलाया गया था	लक्ष्य प्राप्त	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1	शून्य	120 (STC) + 60 गंतव्य) (आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी स्ट्रीम में)	शून्य
कुल			शून्य

9.3 "उद्यमिता कार्यक्रम" (ई .पी)

उद्यमिता कार्यक्रम का उद्देश्य नामांकित उम्मीदवारों को स्वरोजगार की सुविधा प्रदान करना है। ये प्रत्येक 150 घंटे की अवधि के छोटे पाठ्यक्रम हैं और इन्हें निम्नलिखित ट्रेडों में पेश किया जा सकता है:

1. कुक – तंदूर
2. बारमेन
3. बैकर
4. होमस्टे - मल्टी स्किल्ड केयरटेकर
5. हलवाई - भारतीय मिठाई

"उद्यमिता कार्यक्रम" (E.P) के आंकड़े - वर्ष 2021-22

क्र.सं .	स्ट्रीम जिसमें E.P चलाया गया था	लक्ष्य प्राप्त	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1	शून्य	30 (HSRT) + 60 गंतव्य) (आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी स्ट्रीम में)	शून्य
कुल			शून्य

पुरस्कार और उपलब्धियों

द वीक ने वर्ष 2011 से अब तक देश के विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों की अपनी वार्षिक रैंकिंग में होटल प्रबंधन संस्थान, पूसा, नई दिल्ली को नंबर 1 होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में स्थान दिया है।

द आउटलुक ने पूरे भारत में होटल प्रबंधन संस्थान के बीच 2013 से होटल प्रबंधन संस्थान, पूसा, नई दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक कॉलेज के रूप में स्थान दिया।

इंडिया टुडे ने वर्ष 2016 से अब तक देश के विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों की अपनी वार्षिक रैंकिंग में होटल प्रबंधन संस्थान, पूसा, नई दिल्ली को नंबर 1 होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में स्थान दिया है।

GHRDC पत्रिका ने 2018 से लगातार पिछले 4 वर्षों से IHM पूसा को पूरे भारत में होटल प्रबंधन संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग में नंबर 1 के रूप में स्थान दिया है।

TRAS - थिंक रिस्पॉन्सिबल एक्ट सस्टेनेबल

इस अभियान के तहत

IHM, पूसा ने TRAS (थिंक रिस्पॉन्सिबल एक्ट सस्टेनेबल) की शुरुआत की और साल-दर-साल युवाओं में भोजन, ऊर्जा, पानी और वित्त जैसे आवश्यक संसाधनों की स्थायी खपत के लिए जागरूकता पैदा करते हैं।

क्र.सं.	कार्यशाला और गतिविधियाँ
1	सफलता प्रबंधन
2	अंतिम स्पर्श
3	संगठन में परिवर्तन और चुनौतियों का प्रबंध
4	कठिन समय में आशावादी बने रहना
5	एक राजस्व प्रबंधक के जीवन के एक दिन की यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियाँ
6	हास्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कोविड के बाद मैनेजमेंट की आवश्यकता में री-इंजीनियरिंग
7	रसोई और खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग में कोविड के बाद अपनाई गई रणनीतियाँ
8	शाकाहारी भोजन का भविष्य
9	गृह व्यवस्था में हास्पिटैलिटी डिजाइन सरफेस और करियर के अवसर
10	क्लाउड किचन पर विशेषज्ञ इनपुट
11	एक स्वतंत्रता सेनानी – उधम सिंह का जीवन
12	सिक्किम एक भारत श्रेष्ठ भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ

13	जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरो की सुरक्षा संकल्प,2004
14	कोरियाई व्यंजन कार्यशाला
15	सिक्किम की भाषा के प्रचार पर अतिथि व्याख्याता
16	वेबिनार - सिक्किम भोजन द्वारा एक पाक सैर
17	हिंदी भाषा प्रचार कार्यशाला
18	तन – मन की स्वच्छता
19	स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कार्यशाला
20	भारत कौशल प्रतियोगिता के लिए बूट कैंप
21	सतर्कता सप्ताह
22	साम्प्रदायिक सदभाव सप्ताह
23	हिंदी पखवाड़ा
24	स्वच्छता पखवाड़ा
25	फल भिगोने की रस्म
26	एकता दिवस उत्सव
27	संविधान दिवस समारोह
28	गणतंत्र दिवस उत्सव
29	स्वतंत्रता दिवस उत्सव
30	शिक्षक दिवस उत्सव
31	अंतराष्ट्रीय महिला दिवस
32	अंतराष्ट्रीय योग दिवस उत्सव

अधिशाली डंडल, हलल डुरंड, कलरलंग एवं डुषलहलर संसुथलन, डूसल, नई दललुी

	सललल (डरुडन) डलरत सरकलर एवं अधुडकुष / सडलडतल हललल डुरंड, कलरलंग एवं डुषलहलर संसुथलन डूसल, नई दललुी	
डुरतलनलधल केंदुरीड सरकलर		डुरतलनलधल दललुी सरकलर
वलतुीड सलललहकलर एवं अडर सललल, डरुडन डंडललड, डलरत सरकलर		
अडर डलल नलदेशक डरुडन डंडललड, डलरत सरकलर, नई दललुी		सललल डरुडन वलडलग, दललुी सरकलर, दललुी
कुषुतुरीड नलदेशक, डरुडन कलरुडललड, डलरत सरकलर, नई दललुी		नलदेशक , तकनीकीशलकुषल, दललुी सरकलर
उड शुलकुषलक सलललहकलर, डलनव संसलधन वलकलस डंडललड, डलरत सरकलर		शुरड अलडुकुत, दललुी सरकलर, दललुी
नलदेशक (अधुडडन) एन.सी.एक.एम.सी.टी. नलएडल		रकलसुतुरलर, तकनीकीशलकुषल डुलर्ड, दललुी सरकलर, दललुी
	औधुडुगलक डुरतलनलधल	
	शुरी वलकड दकुत, सदसुड	
	शुरी डनुकलत सललु गलल, सदसुड	
	शुरी सईद शलरवलनी, सदसुड	
	डुरधलनलकलरुड / सललल	

होटल प्रबंध केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, पूसा, नई दिल्ली-110012
स्टाफ संगठन चार्ट-2021-2022

पद नाम	आवश्यकता	भर्ती	रिक्तियाँ
प्रधानाचार्य	1	1	--
विभागाध्यक्ष	3	3	--
वरिष्ठ व्याख्याता	6	6	--
व्याख्याता	9	6 (नियमित) 1 (संविदागत)	3
सहायक व्याख्याता	14	3 (नियमित) 1 (संविदागत)	11
टीचिंग एसोसिएट	--	3	--
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	--
कार्यालय अधीक्षक	1	1	--
लेखाकार	1	1	--
यू. डी. सी. / स्टोर कीपर	6	4	2
एल. डी. सी.	8	5 (आउट सोर्स)	8
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	--
प्रधानाचार्य का निजी सहायक	1	--	1
आशुलिपिक	1	--	1
फोरमैन	1	1 (आउट सोर्स)	1
वाहन चालक	1	-	1
स्किल्ड स्पोर्ट स्टॉफ	2	2	--
प्रयोगशाला सहायक	6	5	1
इलैक्ट्रिशियन	1	1	--

भाग - II
(लेखा परिक्षा खाते)

- (अ) ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ 31-03-2022 में बैलेंस शीट
(ब) 2021-22 के लिए आय और व्यय

होटल प्रबंध केटरिंग एवं पोषाहार संसथान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली

31 मार्च 2022 का तुलन पत्र

समग्र: / पूंजीगत निधि एवं देयाताये	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31.03.2022	पिछला वर्ष 31.03.2021
कोरपस/पूंजीगत निधि	1	164,560,221	156,391,951
आरक्षित एवं अधिशेष	2	1,732,886	(4,226,570)
विशेष प्रयोजन/अक्षयनिधि	3	32,144,972	20,357,997
आरक्षित कर्ज एवं उधार	4	NIL	NIL
अनारक्षित कर्ज एवं उधार	5	NIL	NIL
आस्थगित ऋण देनदारियां	6	NIL	NIL
वर्तमान देनदारियां और प्राक्धान	7	51,093,056	37,063,576
योग(अ)		249,531,135	209,586,954
पारिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियों	8		
कुल जमा		173,373,854	140,538,512
घटाया : मूल्यहास		80,682,475	69,964,427
शुद्ध योग		92,691,379	70,574,085
कार्य प्रगति पर		1,124,310	24,457,810
निवेश- विशेष प्रयोजन/अक्षय निधि	9	1,550,000	350,000
निवेश- अन्य	10	NIL	NIL
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	11	154,165,446	110,647,857
योग(ब)		249,531,135	206,029,752
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	24		
आकास्मिक देनदारियां और खातों के लिए नोट्स	25		
कृते आर निवास अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या: 003253N			
सी.ए. चंचल अग्रवाल साथी सदस्यता संख्या: 003253N			
जगह: नई दिल्ली दिनांक: 25.08.2022			
यू.डी.आई.एन. नं.: 22502926ASQJYR1056			
कृते होटल प्रबंध, केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान		(प्रशासनिक अधिकारी)	(लेखाकार)
(प्रधानाचार्य) जगह: नई दिल्ली दिनांक: 25.08.2022			

होटल प्रबंध केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली आय व्यय लेखा 31 मार्च 2022 तक

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31.03.2022	पिछला वर्ष 31.03.2021
अ) आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	1,454,862	797,908
अनुदान/सहायता	13	-	-
फीस/शुल्क	14	120,270,835	104,096,968
निवेश से आय	15	32,434	34,967
प्रकाशन, रॉयल्टी आदि से आय	16	1,059,324	1,077,124
अर्जित ब्याज	17	5,103,034	2,390,584
अन्य आय	18	1,002,358	1,274,744
तैयार माल में स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगति पर काम	19	-	-
योग		128,922,847	109,672,295
ब) व्यय			
स्थापना व्यय	20	92,188,006	81,064,966
अन्य प्रशासनिक खर्चें आदि	21	20,071,337	11,546,986
अनुदान/सहायता पर खर्चें आदि		NIL	NIL
ब्याज	23	NIL	NIL
मूल्यहास से पूर्व कुल खर्चें		112,259,343	92,611,952
शेष मूल्यहास से पहले व्यय पर आय का अधिशेष/(घाटा) होना (अ-ब)		16,663,504	17,060,343
वर्ष के दौरान मूल्यहास	8	10,718,048	10,515,260
शेष मूल्यहास के बाद व्यय पर आय का अधिशेष/घाटा		5,945,456	6,545,084
घटा/जमा: पूर्व अर्वाधि आइटम	22	(14,000)	88,054
आय और व्यय खाते से अधिशेष में ले जाया गया अधिशेष/(घाटा)		5,959,456	6,457,030
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	24		
आकस्मिक देनदारियाँ और खातों के लिए नोट्स	25		
कृते आर निवास अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या: 003253N			
कृते होटल प्रबंध, केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान			
सी.ए चंचल अग्रवाल साथी सदस्यता संख्या: 003253N	(प्रधानाचार्य) जगह: नई दिल्ली दिनांक: 25.08.2022	(प्रशासनिक अधिकारी)	(लेखाकार)
जगह: नई दिल्ली दिनांक: 25.08.2022 यू.डी.आई.एन.नं.: 22502926ASQJYR1056			

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग					
अनुसूची 1 - समग्र / पूंजीगत निधि		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
वर्ष के प्रारम्भ का शेष		156,391,951		155,142,378	
जमा: कॉर्पस/कैपिटल फंड में योगदान ##		-		-	
Grant In Aid-Capital (Building)		8,168,270		1,249,573	
जमा (घटाया) आय तथा व्यय खाते से/ शुद्ध आय का शेष		-	164,560,221	-	156,391,951
वर्ष के अंत में शेष			164,560,221		156,391,951
### बुनियादी ढांचे (भवन, संयंत्र और मशीनरी, आदि) को जोड़ने के लिए सरकार से प्राप्त गैर-आवर्ती अनुदान का उपयोग नहीं किया गया है और जिसे फंड से बनाई गई संपत्ति के पूंजीकरण पर समायोजित किया जाएगा।					

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग					
अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
1. आय तथा व्यय खाता से अधिशेष/घाटा					
वर्ष के शुरू में शेष		(4,226,570)		(10,683,600)	
जमा/ घटाया: (घाटा) /वर्तमान वर्ष में बकाया		5,959,456		6,457,030	
वर्तमान वर्ष में शेष			1,732,886		(4,226,570)
कुल			1,732,886		(4,226,570)

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान
लाइब्रेरी एकेड्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
31 मार्च 2022 का तलन पत्र के अनुसूची भाग

अनुसूची 3 - विशेष प्रयोजन अक्षय निधि	विद्यार्थी गतिविधि निधि	क्षमता वृद्धि सेवा प्रदाता निधि योजना	संस्थान विकास निधि	नॉन रिकरिंग ग्रांट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए	वर्तमान वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21
अ) वर्तमान शेष						
ब) कोष में योगदान						
i) चंदा/ अनुदान	-	-	-	1,521,528	20,357,997	10,675,568
ii) नॉन रिकरिंग ग्रांट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए #	-	-	-	20,213,836		
iii) कोष के निवेश से आय	-	-	-			
iv) अन्य योग	-	-	-			
विद्यार्थी गतिविधि निधि						
- सी बी एस पी						
- पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम						
- एक भारत श्रेष्ठ भारत						
- हुनर से रोजगार (संस्थान/होटल)		653,890	-		20,867,726	12,240,459
- कौशल परीक्षण और प्रमाणन		-	-		41,225,723	22,916,027
योग (अ + ब)						
स) निधि के उद्देश्य प्राप्त के लिए उपयोग / व्यय						
i) पूंजीगत खर्च						
- स्थायी परसंपत्तिया	-	-	-			
- अन्य	-	-	-			
कुल योग						
ii) राजस्व खर्च						
- पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम						
- एक भारत श्रेष्ठ भारत		232,838				
- हुनर से रोजगार कार्यक्रम (संस्थान/होटल)	-	363,700	-			
- कौशल परीक्षण और प्रमाणन	-	-	-			
- विद्यार्थी गतिविधि निधि	315,943	-	-		9,080,751	2,558,030
योग					9,080,751	2,558,030
वर्ष के अंत में शेष (अ + ब - स)					32,144,972	20,357,997

पर्यटन मंत्रालय से बुनियादी ढांचे (भवन, संयंत्र और मशीनरी, आदि) को जोड़ने के लिए प्राप्त अनावर्ती अनुदान, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, को परिस्पष्टि के पंजीकरण पर समायोजित किया जाएगा/ निधि से सृजित पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाएगा/ निधि से सृजित पूंजीगत कार्य जाएगा/

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्ररी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग					
अनुसूची 4 - सुरक्षित उधार एवं देयताएं		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
1. केन्द्रीय सरकार			-		-
2. राज्य सरकार			-		-
3. वित्तीय संस्थान					
क) सामयिक उधार					
ख) अर्जित ब्याज					
4. बैंक :					
क) सामयिक कर्ज					
- इंटरेस्ट एक्कूड एंड ऊयू					
ख) अन्य कर्ज					
- इंटरेस्ट एक्कूड एंड ऊयू					
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसी					
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड					
7. अन्य					
कुल			-		-
अनुसूची 5 - अनारक्षित कर्ज एवं देता					
		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
1. केन्द्रीय सरकार					
2. राज्य सरकार					
3. वित्तीय संस्थान					
4. बैंक :					
क) सामयिक कर्ज					
ख) अन्य कर्ज					
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड					
7. सावधि जमा					
8. अन्य					
कुल			-		-
अनुसूची 6 - आस्थागित क्रेडिट देनदारिया :					
		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
1. समग्र पूंजीगत निधि एवं अन्य संपत्ति के आधार पर			-		-
2. अन्य					
कुल			-		-

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग				
अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्राप्तियां		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21
		रकम	रकम	रकम
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृती				
2. विविध लेनदार				
- माल के लिए		-	-	-
- अन्य		4,310,847	4,310,847	1,963,831
3. अग्रिम राशि प्राप्त व जमा				
- कॉलेज अवधान राशि		10,351,830	9,511,330	
- आवास अवधान राशि		1,367,890	1,617,390	11,128,720
4. आज्ञित ब्याज परंतु देय नहीं :				
- आसक्षित कर्ज/उधार		-	-	-
- अनारक्षित कर्ज/उधार		-	-	-
5. साविधिक देयताएं (जी.आई.एस., जी.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. सी.पी.एफ.)				
क) अतिशोध				
ख) अन्य				
- जी.आई.एस.		35	104	
- एन.पी.एस.		168,276	151,704	
- जी.पी.एफ.		69,800	52,300	
- टी.डी.एस. देय		467,185	324,739	
- जी.एस.टी. देय		97,829	79,145	607,992
6. अन्य वर्तमान देयताएं				
- वेतन		2,640,457	2,361,629	
- पेंशन		1,948,430	1,798,049	
- सी.पी.एफ.		4,620	4,280	
- छात्र को देय (लिस्ट संलग्न)		109,910	862,500	
- लेखा परीक्षा शुल्क/व्यावसायिक शुल्क देय		54,000	60,775	
- छात्रवृत्ति		285,480	486,380	
- जी.पी.एफ.-सी.पी.एफ. ट्रस्ट को देय		36,873	27,684	
- लीव एनक्वैशमेंट और ग्रेजुटी के लिए फंड		18,893,349	8,210,043	
- पर्यटन मंत्रालय		-	-	
खर्च देय				
- बिल खर्च देय		232,108	359,978	16,422,818
- वजीफा देय		2,251,500	2,251,500	100,000
- पीहमा एसोसिएशन				200,000
- नरुला फाउंडेशन				50,000
- वी.डी.कोठारी मेमोरियल गोल्ड मेडल				-
- डॉ. अंकुर भाटिया मेमोरियल अवार्ड				-
- वी.एस.दाता मेमोरियल अवार्ड				-
- ठेकेदार प्रदर्शन सुरक्षा				2,519,047
- अन्य देय (लिस्ट संलग्न)				3,300,171
- अन्य वर्तमान देयता (सर्पेस)				770,999
			51,093,056	37,063,576
	कुल			

अनुसूची 8 - स्थायी परिसम्पत्तिया

होटल प्रबंध केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पुसा कॉम्प्लेक्स, पुसा, नई दिल्ली
31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूच्य भाग

क्रम. सं	विवरण	मूल्यहास की दर प्रतिशत	वर्ष के शुरू में लागत/कीमत	वर्ष के दौरान योगदान	सकल योग	वर्ष के अंत में लागत / कीमत	वर्ष के शुरू में	वर्ष के लिए	कुल वर्ष के अंत तक	वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर	शुद्ध योग
		%	1 01.04.2021 रकम	2 Before- 30/9 रकम	3 After - 30/9 रकम	4 31.03.2022 रकम	5 01.04.2021 रकम	6 रकम	7 31.03.2022 रकम	4-7 31.03.2022 रकम	गत वर्ष की समाप्ति 1-5 31.03.21 रकम
1	भूमि										
a.	फ्री होल्ड		89,424	-	-	89,424	-	-	-	89,424	89,424
b.	लीज होल्ड										
2	भवन										
a.	फ्री होल्ड भूमि पर	10%	41,574,062	-	24,045,456.00	65,619,518	17,215,571	3,638,122	20,853,693	44,765,825	24,358,491
b.	लीज होल्ड भूमि पर										
3	प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण										
4	वाहन	15%	38,500	-	-	38,500	21,417	2,562	23,979	14,521	17,083
5	फ़र्निचर एवं फिक्सचर	10%	8,974,812	1,607,618	10,582,430	10,582,430	4,537,299	524,132	5,061,431	5,520,999	4,437,513
6	कायालय उपकरण	15%	6,484,857	199,246	6,717,703	6,717,703	5,773,330	126,712	5,900,042	817,661	711,527
7	कम्प्यूटर	40%	12,821,703	127,962	87,832	13,037,497	12,780,583	85,199	12,865,782	171,715	41,120
8	विद्युत उपकरण	15%	2,086,055	82,078	69,969	2,238,102	1,827,044	56,411	1,883,455	354,647	259,011
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	60,685	12,203	3,148	76,036	51,386	9,231	60,617	15,419	9,299
10	दुपबल तथा जल सप्लाई	15%	79,179	-	-	79,179	74,402	717	75,119	4,060	4,777
11	अन्य स्थायी परिसम्पत्तिया										
a.	पाकशाला उपकरण	15%	2,238,131	12,800	-	2,250,931	2,019,542	34,708	2,054,250	196,681	218,589
b.	हाउसकीपिंग उपकरण	15%		64,555	-	64,555	-	4,842	4,842	59,713	-
c.	क्षव्य हथिय प्रणाली	15%	704,256	-	704,256	704,256	599,655	15,690	615,345	88,911	104,601
d.	लेब उपकरण	15%	1,510,396	-	5,749,629	7,260,025	1,340,047	456,775	1,796,822	5,463,203	170,349
e.	लिफ्ट	15%	927,608	-	-	927,608	808,100	17,926	826,026	101,582	119,508
f.	मोबाइल फोन	15%	50,988	-	-	50,988	18,447	4,881	23,328	27,660	32,541
g.	जेनेरेटर	15%	197,435	-	-	197,435	175,411	3,304	178,715	18,720	22,024
h.	वातानुकूलित उपकरण	15%	893,913	-	599,462	1,493,375	741,370	67,841	809,211	684,164	152,543
i.	सी.सी.टी.वी.	15%	302,747	-	-	302,747	205,692	14,558	220,250	82,497	97,055
j.	भारी उपकरण	15%	12,573,241	-	-	12,573,241	7,206,025	805,082	8,011,107	4,562,134	5,367,216
k.	अग्निशामक उपकरण	15%	1,407,423	-	-	1,407,423	1,170,344	35,562	1,203,906	201,517	237,079
l.	गैस फिटिंग	15%	90,000	-	-	90,000	74,721	2,292	77,013	12,987	15,279
m.	ऑडिटोरियम	10%	23,797,755	-	-	23,797,755	4,521,573	1,927,618	6,449,191	17,348,564	19,276,182
n.	आर.ओ. प्यूरीफायर	15%	379,190	-	139,784	518,974	57,275	58,771	116,046	402,928	321,915
o.	सोलार गीजर	40%	1,445,191	-	-	1,445,191	924,922	208,108	1,133,030	312,161	520,269
p.	एस टी पी	40%	3,621,835	-	-	3,621,835	2,317,974	521,544	2,839,518	782,317	1,303,861
q.	डब्ल्यूटीपी	40%	2,138,167	-	-	2,138,167	1,368,427	307,896	1,676,323	461,844	769,740
r.	डी.जी.सेट	15%	4,344,524	-	-	4,344,524	1,205,605	470,838	1,676,443	2,668,081	3,138,919
s.	विद्युत स्थापना	15%	9,445,968	-	-	9,445,968	2,621,256	1,023,707	3,644,963	5,801,005	6,824,712
t.	पीएनजी गैस पाइपलाइन	15%	2,260,467	-	-	2,260,467	307,005	293,019	600,024	1,660,443	1,953,462
u.	Work In Progress:- Rehabilitation & Restoration of Building Equipment, Furniture fixtures and Others		19,056,547	-	4,988,909	-	-	-	-	-	19,056,547
			5,401,263	728,448	8,112,309	1,124,310	-	-	-	1,124,310	5,401,263
कुल योग			164,996,322	997,091	40,662,516	174,498,164	69,964,427	10,718,048	80,682,475	93,815,689	95,031,895
गत वर्ष			142,008,649	3,293,854	19,693,819	164,996,322	59,449,168	10,515,260	69,964,427	95,031,895	82,559,481

नोट: अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास चार्ज करने के लिए यह पंद्रहवां वर्ष है।

नोट: *वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि में वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित 14000 रुपये का अतिरिक्त मूल्यहास शामिल है।

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग					
अनुसूची 9: अक्षय निधि एवं विशेष प्रयोजन निधि का निवेश		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
1.)	इवेंट सपोर्ट के लिए एकडीआर	1,550,000	1,550,000	350,000	350,000
कुल			1,550,000		350,000

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग					
अनुसूची 10: निवेश - अन्य		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में		-		-
2.	अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों में		-		-
3.	शेअर्स		-		-
4.	डिबेंचर तथा बॉन्ड		-		-
5.	सहायक तथा संपुल्लत उधम में		-		-
6.	अन्य (निर्दिष्ट करना)		-		-
कुल			-		-

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012
 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग

अनुसूची 11: वर्तमान, परिसंपत्तियां, कर्ज एवं अग्रिम राशि	वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
	रकम	रकम	रकम	रकम
क. वर्तमान परिसंपत्तियां				
1. वस्तु सूची				
क) स्टोर एवं कलपुर्जे	-	-	-	-
- प्रशिक्षण सामग्री (खादय पदार्थ, पाठय पुस्तकें आदि)	-	-	-	-
ख) खुले पुर्जे	-	-	-	-
ग) व्यवसाय में भंडार	-	-	-	-
- तैयार माल	-	-	-	-
- कार्य प्रचलन में	-	-	-	-
- कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध लेनदार				
क) 6 माह से अधिक अवधि से बकाया	241,054		329,554	
ख) 6 माह से कम अवधि से बकाया	22,370	263,424	23,408	352,962
3. नकद	-	-	32,821	32,821
4. बैंक में जमा				
क) अनुसूचित बैंकों में जमा				
- एफ.डी.आर (पी.एन.बी बैंक)	45,000	-	45,000	
- एफ डी आर (सिंडिकेट बैंक/कनारा बैंक)	113,883,631	-	73,000,000	
- एफ डी आर (भारतीय स्टेट बैंक)	-	113,928,631	-	73,045,000
ख) अनुसूचित बैंकों के साथ बैंक बैलेंस:				
- सिंडिकेट बैंक-91421010000841 चालू खाता	9,237,048		2,511,411	
- भारतीय स्टेट बैंक				
-SB 10285163432	-		314,655	
-SB 10285163443	21,329,271		6,085,022	
-SB 30156657205	685,398		4,924,068	
-Current 35838495117	532,042	31,783,759	7,957,548	21,792,704
ग) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:				
- चालू खाता	-		-	
- जमा खाता	-		-	
- सेविंग खाता	-		-	
5. एडवांस टू एम्प्लॉयीज़	52,777	52,777	86,509	86,509
कुल (क)		146,028,590		95,309,997

अनुसूची 11: वर्तमान परिसंपत्तियाँ, कर्ज एवं अग्रिम राशि)		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम	रकम
ख. उधार, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ					
1. उधार					
क) स्टाफ (एच.बी.ए. कार/स्कूटर, साइकिल अग्रिम		-		-	
ख) अन्य		-		-	
2. अग्रिम तथा अन्य प्राप्त करने योग्य देय राशि नकद/वस्तु के रूप में सम मूल्य पर					
क) पूंजी खाता पर					
- सी पी डब्ल्यू डी		-			
ख) छात्रों से प्राप्त					
- शुल्क प्राप्त (अनुसूची 24, पैरा 6.1 देखें)		946,350		839,421	
- छात्रों से अन्य प्राप्य		163,100		7,562,550	
ग) अन्य				361,215	
- सुरक्षा जमा		334,370		339,570	
- अन्य अग्रिम		10,000		704,927	
- विदेश मंत्रालय		461,112		461,112	
- बाहरी असाइनमेंट		-		162,642	
			1,914,932	-	10,431,437
3. अर्जित आय					
क) अक्षय निधि/उपदान कोष के निवेश से		-		-	
ख) कर्ज तथा पेशगी द्वारा		-		-	
ग) अन्य (नियमित समय पर ब्याज)		4,138,297	4,138,297	4,906,424	4,906,424
4. दावा (प्राप्त करने योग्य) स्रोत पर कर कटौती					
वित्तीय वर्ष 2015-19 से पूर्व स्रोत पर कर कटौती		-		2,117,133	
वित्तीय वर्ष 2019-20 से पूर्व स्रोत पर कर कटौती		1,041,293		1,041,293	
वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्व स्रोत पर कर कटौती		398,776		398,776	
वित्तीय वर्ष 2021-22 से पूर्व स्रोत पर कर कटौती		621,730	2,061,799	-	3,557,202
5 GST TDS REFUNDABLE/ INTEREST ON TPDDL		21,827	21,827	-	-
			8,136,855		15,337,861
			154,165,446		110,647,857

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग				
अनुसूची 12: विक्री/सेवाओं द्वारा आय	वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
	रकम	रकम	रकम	रकम
1. विक्री से आय क) पहचान पत्रों की बिक्री से ख) फास्ट फूड की बिक्री से	- 843,068		799,350 107,204	906,554
2. सेवाओं द्वारा आय - प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी शुल्क - कंसल्टेंसी के खिलाफ खर्च (*) {अनुसूची 24 पैरा 6 (ii) का उल्लेख - इंटरनेट और डॉक्टर सेवा - अन्य प्राप्ति	808,059 422,082 - 225,817	843,068 385,977 - 225,817	323,624 1,180,067 738,900 8,897	(856,443) 738,900 8,897
कुल		1,454,862		797,908

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग				
अनुसूची 13: अनुदान / उपदान (उपदान तथा अनुदान प्राप्त)	वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
	रकम	रकम	रकम	रकम
1. केंद्र सरकार 2. राज्य सरकार 3. सरकारी एजेंसी 4. संस्थान/कल्याणकारी संस्थाओं से 5. अंतराष्ट्रीय संस्थान 6. अन्य	- - - - - -		- - - - - -	- - - - - -
कुल		-		-

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग				
अनुसूची 14: शुल्क	वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
	रकम	रकम	रकम	रकम
- दाखिला शुल्क - ट्यूशन शुल्क * - परीक्षा शुल्क - संस्थागत शुल्क - प्रचालन शुल्क - होस्टलर्स से बिजली और पानी का चार्ज - लॉकर किराया - कमरे का किराया - खाद्य प्रशिक्षण फीस - लौड्री चार्ज - छात्र से लेट फीस - इधु परीक्षा शुल्क - एन.सी. एच. एम. सी .टी परीक्षा शुल्क	747,100 99,673,905 1,886,400 3,845,250 - 648,000 6,906,250 - 972,000 175,730 - 5,416,200		724,000 91,678,446 1,908,500 - 1,122,000 - 367,750 - 2,907,500 - 28,100 8,472 5,352,200	104,096,968 104,096,968
कुल		120,270,835		104,096,968
* वर्ष 2021-22 के दौरान संस्थान ने शुल्क/सदस्यता से प्राप्त राजस्व को छोड़कर प्रौढवन के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में 71,69,900/- रुपये की कमी हुई है। * वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान ने अपनी राजस्व मान्यता नीति को नकद से उपार्जन आधार पर बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में 75,62,550 रुपये की वृद्धि हुई है।				

होटल प्रबंध कंटरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग				
अनुसूची 15: निवेश द्वारा आय (उपदान तथा अनुदान के निवेश द्वारा आय)		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21
		रकम	रकम	रकम
1. ब्याज		-	-	-
- सरकारी प्रतिभूतियों पर		-	-	-
- डिबेंचर/बॉन्ड पर		-	-	-
2. म्यूचुअल फंड की प्रतिभूतियों पर आय		-	-	-
- शेयर द्वारा		-	-	-
- म्यूचुअल फंड की प्रतिभूतियों पर		-	-	-
3. किराया		12,236	-	18,203
4. अन्य	क) एफ.डी.आर. पर प्राप्त ब्याज (नरूला फ़ाउंडेशन) ख) एफ.डी.आर. पर प्राप्त ब्याज (वीडी कोठारी मेमोरियल अवार्ड) ग) वीएस दत्ता मेमोरियल अवार्ड घ) अंकुर भाटिया मेमोरियल अवार्ड	3,175 10,460 6,563	-	3,427 - 13,337
कुल			32,434	34,967

होटल प्रबंध कंटरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग				
अनुसूची 16: रॉयल्टी, किराया और प्रकाशन आदि से आय		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21
		रकम	रकम	रकम
1. रॉयल्टी से आय		-	-	-
2. प्रकाशन से आय		-	-	-
3. अन्य	- किराया पी.एन.बी.के.ए.टी.एम.से - रिलायंस इंफ्रालैब लिमिटेड से किराया	238,056 821,268	255,856 821,268	1,077,124 1,077,124
कुल			1,059,324	1,077,124
अनुसूची 17: अर्जित ब्याज		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21
		रकम	रकम	रकम
1. सावधि जमा पर	क) अनुसूचित बैंकों से (गत वर्षों के ब्याज सहित) ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से ग) संस्थाओं से घ) टी.डी.एस. कटौती एफ.डी.आर. पर	4,597,917 - - -	2,156,079 - - 4,597,917	2,156,079
2. बचत खाता से :	क) अनुसूचित बैंकों ख) गैर-अनुसूचित बैंकों द्वारा ग) डाकघर बचत खाता से घ) अन्य (इनकम टैक्स एफंड)	13,221 - - 491,896	234,505 - - 505,117	234,505
3. कर्ज से	क) कर्मचारी/स्टाफ से ख) अन्य	- -	- -	- -
4. कैपिटल ग्रांट		-	5,103,034	2,390,584
कुल			5,103,034	2,390,584

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसारची भाग				
अनुसूची 18: अन्य आय		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21
		रकम	रकम	रकम
1. विक्रय/प्रसंपातियों के निपटारे से लाभ				
- प्रास्पेक्टस की बिक्री		206,000		223,200
- स्टाफ से प्राप्त भोजन शुल्क		106,250		6,000
- इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की स्टाफ से प्राप्ति		156,703		181,497
- लाइब्रेरी सेवा से प्राप्त होस्टलर के अलावा अन्य		49,980		49,161
- बाहरी असाइनमेंट से आय		215,100		367,640
- पी.एन.बी.ए.टी.एम. से प्राप्त बिजली खर्च		27,081		47,688
- लॉग बुक की बिक्री		11,500		14,900
- विविध व्यय		111,104		269,541
- जल प्रभार स्टाफ		22,200	1,002,358	22,700
- लाइसेंस फीस की प्राप्ति		96,440		92,417
कुल			1,002,358	1,274,744
अनुसूची 19: तैयार माल के भंडार में कमी/वृद्धि				
		वर्तमान वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम
क) अंतिम स्टॉक				
- तैयार माल		-	-	-
- चलता हुआ कार्य		-	-	-
ख) शुरू में स्टॉक				
- तैयार माल		-	-	-
- चलता हुआ कार्य		-	-	-
कुल वृद्धि/कमी (क-ख)				
		-	-	-
अनुसूची 20: संस्थापना खर्चे				
		वर्तमान वर्ष 2021-22	पिछला वर्ष 2020-21	
		रकम	रकम	रकम
क) वेतन एवं मजदूरी		51,138,596		42,196,005
ख) भविष्य निधि और NPS के लिए योगदान		2,121,931		1,845,648
ग) स्टाफ एप्रोन और वर्दी		73,150		-
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सामयिक हितलाभ		24,170,821		21,778,675
ङ) शैक्षिक खर्चे		1,351,400		910,258
च) छुट्टी नकदीकरण		9,158,106		7,847,633
छ) स्टाफ चिकित्सा व्यय		1,542,496		1,313,544
ज) एल टी सी		101,584		31,654
झ) सी.जी.एच.एस. खर्चे		511,722		459,273
म) कम्प्यूटेड टैल्यू		-		2,277,276
न) ग्रेज्युटी		1,525,200		2,000,000
ट) बच्चों की शिक्षा भत्ता		459,000		405,000
ड) स्थानांतरण भत्ता		34,000	92,188,006	-
कुल			92,188,006	81,064,966

होटल प्रबंध कंटेरिंग एव पोषाहार संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012
 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग

अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक खर्च	वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
	रकम	रकम	रकम	रकम
क) खरीद (प्रशिक्षण खाद्य समग्री का खर्च ख) बिजली तथा पावर ग) पानी का खर्च घ) मरम्मत एवं रख-रखाव (बिलिंग, उपकरण और अन्य) ङ) पोस्टेज चार्जेंस च) छपाई एवं स्टेशनरी छ) यात्रा व्यय तथा किराया ज) मैगजीन एंड न्यूज पेपर ल) कम्प्यूटर खर्च म) लेखा परीक्षक की फीस झ) प्रोफेसनल चार्जेंस ट) विज्ञापन एवं प्रचार ठ) टेलीफोन और इंटरनेट खर्च ड) खरीद (बैकरी शॉप खर्च) ढ) इयू परीक्षा का खर्च ण) एनसीएचएमसीटी परीक्षा व्यय	2,581,317 4,701,630 270,091 4,051,692 4,318 204,097 33,601 30,080 318,490 59,000 241,079 144,794 116,736 569,401 - 4,248,734		508,910 4,337,081 257,538 894,500 23,860 103,091 14,691 13,685 271,842 64,900 200,449 194,247 1,185,540 52,489 1,000 1,692,447	
त) अन्य - बैंक खर्च - साधारण खर्च - छात्रावास खर्च - वार्षिक दिवस खर्च - सफाई सामग्री - ईंधन तथा गैस उपयोग - क्रांिकरी और ग्लासवेयर - टैक्सी खर्च - सम्पत्ति टैक्स - खेल और मनोरंजन खर्च - सेमीनार खर्च - बागवानी खर्च - राजभाषा हिंदी खर्च - दर और कर - कोविड-19 खर्च	54,543 114,626 88,750 - 438,384 163,364 269,776 332,241 590,077 49,310 152,847 104,755 43,000 72,348 22,256		41,339 75,263 90,000 10,000 455,965 19,214 10,000 384,142 506,551 18,820 1,268 2,710 60,030 - 55,414	11,546,986
कुल		20,071,337		11,546,986

होटल प्रबंध कंटेरिंग एवं पोषाहार संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012
 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र के अनुसूची भाग

Schedule 22: Prior Period Items		वर्तमान वर्ष 2021-22		पिछला वर्ष 2020-21	
A.	पिछले वर्षों की वसूली योग्य पार्टी शेष बड़े खाते में डाली गई	रकम	रकम	रकम	रकम
		(14,000)		88,054	
कुल			(14,000)		88,054

Notes ##

* Excess depreciation charged on fixed assets during the FY 2019-20 & FY 2021-22 written back during the year.

अनुसूची 23: ब्याज		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		2021-22		2020-21	
क) स्थिर कर्ज ख) अन्य कर्ज (बैंक खर्च सहित) ग) अन्य		रकम	रकम	रकम	रकम
			-		-
			-		-
कुल			-		-

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली

अनुसूचियां संलग्न और खातों का हिसाब बनाना
मार्च 31, 2022 के रूप में

अनुसूची 24: विशिष्ट लेखा नीति

1. लेखा सम्मेलन

खातों को ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत अर्जित / नकद आधार पर तैयार किया गया है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार।

2. इन्वेंटरी वैल्यूएशन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए लेखा मानक के अनुसार मूल्य और वसूली योग्य मूल्य के अनुसार मूल्यवान है। संस्थान के प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी प्रमाणित और मूल्यवान है।

3. निवेश

संस्थान ने अपना सभी निवेश टर्म डिपॉजिट में किया था।

4. स्थायी संपत्तियाँ

i) फिक्स्ड एसेट्स आवक माल दुलाई, शुल्क और करों पर समावेशी और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों की लागत पर बताए गए हैं।

ii) गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पस फंड की तुलना में) के माध्यम से प्राप्त की गई अचल संपत्ति, कैपिटल रिजर्व के अनुरूप क्रेडिट द्वारा बताए गए मूल्य पर पूंजीकृत हैं।

5. मूल्यहास

i) आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार लिखित डाउन मूल्य पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

ii) 31.03.2022 के रूप में मूल्यहास आरक्षित राशि रु. 8,06,82,475/- तक है।

6. राजस्व मान्यता

i) वर्ष 2021-22 के दौरान, संस्थान ने शुल्क/सदस्यता से प्राप्त राजस्व को छोड़कर अर्जित आधार पर राजस्व को मान्यता दी है, जिसका लेखा-जोखा प्राप्ति के आधार पर है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में 71,69,900/- रुपये की कमी हुई है। व्यय को अर्जित आधार पर मान्यता दी जा रही है।

ii) अनुदान के लिए बनाए गए बचत खाते पर बैंक से ब्याज जो एम.ओ.टी को देय है, आय के रूप में नहीं माना जाता है और सीधे एम ओ टी को देय राशि में जमा किया जाता है।

iii) संस्थान के पैर पर जी.पी.एफ/सी.पी.एफ ट्रस्ट के बचत बैंक खाते पर ब्याज दर्ज नहीं किया गया है और संस्थान की पुस्तकों में आय के रूप में नहीं दिखाया गया है।

7. ऋण और अग्रिम, प्राप्य और वर्तमान संपत्ति / वर्तमान देनदारियों में सुधार और सामंजस्य के अधीन हैं।

8. सरकारी अनुदान / सब्सिडी

i) परियोजनाओं को स्थापित करने की पूंजीगत लागत के लिए योगदान की प्रकृति का सरकारी अनुदान पूंजी रिजर्व के रूप में माना जाता है।

ii) सरकारी अनुदान/सब्सिडी का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है।

9. लीज

लीज रेंटल्स को लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

i) 31 मार्च, 2022 को कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय 1,31,84,566 रुपये (बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार) की ग्रेच्युटी के लिए देयता खातों की पुस्तकों में प्रदान नहीं की गई है।

कृते आर निवास अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 003253N

संस्थान की ओर से
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन

सी.ए चंचल अग्रवाल
साथी
सदस्यता संख्या: 502926

(प्रधानाचार्य)

(प्रशासनिक अधिकारी) (लेखाकार)

जगह : नई दिल्ली
दिनांक: 25/08/2022

लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली

अनुसूचियां संलग्न और खातों का हिसाब बनाना
मार्च 31, 2022 के रूप में

अनुसूची 25: आकस्मिक देयताएं और खातों के लिए टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- i) संस्थान के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करता है। रुपये- NIL- (पिछले वर्ष रुपये-NIL)
- ii) के संबंध में
 - संस्थान की ओर से दी गई बैंक गारंटी / रुपये NIL (पिछला वर्ष रु.NIL--)
 - संस्थान की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण का पत्र रु.
 - बैंकों के साथ बिल में छूट रु. NIL (पिछला वर्ष रु.NIL)
- iii) के संबंध में विवादित मांगें:
 - Income Tax Rs. 7,71,05,820 (plus accrued interest 46,26,348/-) (Previous Year Rs. NIL). Revised ITR is in process.
 - TDS defaults demand as on 31.03.2022 is Rs 1,07,248.95/- (Previous year – Rs 1,07,248.95).
 - बिक्री कर रु. NIL (पिछला वर्ष रु.NIL)
 - नगर-कर रु. NIL (पिछला वर्ष रु.NIL)
- iv) आदेश के गैर-कार्यकारी के लिए पार्टियों से दावों के संबंध में, लेकिन संस्थान द्वारा रु.NIL (पिछला वर्ष रु.NIL)
- v) IHM अपने पूर्व कर्मचारियों के साथ केंद्रीय अदालती न्यायाधिकरण / जिला न्यायालय / उच्च न्यायालय में लंबित तीन अदालती मामलों का पीछा कर रहा है। इन मामलों के परिणाम के खिलाफ देयता का निष्कर्ष निकाला जाना अभी बाकी है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर कार्यकारी होने के लिए शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और रु. 1,26,48,602/- (पिछला वर्ष रु. NIL)।

3. पट्टा बाध्यता

प्लांट और मशीनरी राशि के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए भविष्य के दायित्वों को रु.NIL (पिछला वर्ष रु. NIL)।

4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को व्यापार के साधारण पाठ्यक्रम में साकार करने का मूल्य है, जो बैलेंस शीट में दिखाए गए कम से कम सकल राशि के बराबर है।

5. कर निर्धारण

1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के प्रावधानों के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, व्यय कुल आय का 85% से अधिक है, कराधान के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है।

2) भुगतान बेसिस पर टी.डी.एस काटा जाता है।

6. कार्यकारी अभियंता-CPWD को रु. 20,58,594/- (लाख (पिछले वर्ष रु. 92,94,579/-) पूंजीगत परिसंपत्तियों के नवीकरण और निर्माण के लिए वर्ष के अंत में बकाया है।

7. संस्थान के पैर पर जमा GPF / CPF ट्रस्ट के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज पर TDS संस्थान की पुस्तकों में दर्ज किया गया है, जब भी राजस्व विभाग से राशि की प्राप्ति होगी, इसे संबंधित निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8. पिछले वर्ष (2020-21) के अनुरूप आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
9. राशियों को निकटतम रुपये में लिया गया है।
10. अनुसूची 1 से 25 को 31.03.2022 तक बैलेंस शीट के एक अभिन्न अंग से और उस वर्ष के लिए आय और व्यय खाते में समाप्त कर दिया जाता है।

कृते आर निवास अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 003253N

संस्थान की ओर से
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन

सी.ए चंचल अग्रवाल
साथी
सदस्यता संख्या: 502926

(प्रधानाचार्य)

(प्रशासनिक अधिकारी) (लेखाकार)

जगह : नई दिल्ली
दिनांक: 25/08/2022



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रेषित,

गवर्निंग बोर्ड के सदस्य

होटल प्रबंधन, केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान पूसा,

नई दिल्ली, भारत

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने होटल प्रबंधन केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान (IHM) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 के बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होटल प्रबंधन केटरिंग एवं पोषाहार संस्थान इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आईएचएम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सही और उचित दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में एक्ससीएच के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, जो आईएचएम पर लागू होने वाले भारतीय कानूनों के प्रावधान को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें। हमने आईएचएम पर लागू भारतीय कानूनों के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें उक्त भारतीय कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं।

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय

शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और तृप्त का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी विवरण प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किए जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

योग्य राय के लिए आधार

1. अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021 की अवधि के लिए रिलायंस टावर से 4,10,634/- रुपये की किराये की आय पर उत्पन्न होने वाली जीएसटी देयता पूरी नहीं हुई है। वर्ष के दौरान देय राशि 73,914/- है जो पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है।
2. चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएं पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं।
3. संस्थान ने अपने कर्मचारियों के लिए "होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन दिल्ली (सोसाइटी) कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट" संस्थान के रूप में अपने कर्मचारियों के लिए जीपीएफ और सीपीएफ फंड (इसके बाद फंड कहा जाता है) को बनाए रखा है। सोसायटी ने दो फंडों को संचालित करने के लिए कानून के अनुसार उपयुक्त अधिकारियों से कोई मान्यता या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। संस्थान के पैर के तहत बैंक खातों का रखरखाव किया जा रहा है। 31 मार्च, 2022 को निधि के तुलन पत्र और अनुबंधों को रिकॉर्ड में ले लिया गया है और किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन पर संस्थान की वित्तीय रिपोर्ट का हिस्सा है और हमारे द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।
4. वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की पर्याप्तता सुनिश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन के बाद, वर्ष के दौरान संपत्ति की हानि परीक्षण नहीं किया जाता है।

योग्य राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण, योग्यता के आधार पर और नोट संख्या 25 वित्तीय विवरण, भारतीय कानून द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से दें और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें

ए) बैलेंस शीट के मामले में, 31 मार्च, 2022 तक आईएचएम के मामलों की स्थिति और;

ख) व्यय से अधिक आय के अधिशेष के आय और व्यय खाते के मामले में।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

संस्था का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा प्रतीत होती है भौतिक रूप से गलत होना।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में आईएचएम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाते, इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

कृते निवास अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या: 003253N)

सी ए चंचल अग्रवाल
साझेदार

(सदस्यता संख्या 502926)

यु.डी.आई.एन.न.: 22502926ASQJYR1056

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 25/08/2022

होटल प्रबंध केंटरिंग एवं पोषाहार संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली-110012
ANNEXURES (F.Y 2021-22)

	AS ON 31.03.2022
विविध देनदार	राशि (रु)
एलायंस एयर इंडिया	241,054.00
पंजाब नेशनल बैंक	22,370.00
कुल	263,424.00
छात्रों से अन्य प्राप्ति	राशि (रु)
शुभांगी वैद (जे एंड के) बी एस सी रोल नंबर -2041117326	63,050.00
तल्हा रऊफ अंसारी रोल नंबर-1955117034	30,000.00
तुशांत दलोत्रा (जे एंड के) बी एस सी रोल नंबर-2041117327	50,150.00
समराह अफाक (सी सी एफ पी बैच, 2021-22)	19,900.00
कुल	163,100
छात्रों को देय राशि	राशि (रु)
छात्रों को अतिरिक्त शुल्क वापस किया जा सकता है	109,910.00
कुल	109,910.00
विविध लेनदार	राशि (रु)
अगार सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1,443,090.00
सी पी डब्ल्यू डी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग)	2,814,668.00
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	23,926.00
मुखीजा ट्रेवल्स	12,584
शर्मा पी वी सी डोर्स	16,579.00
कुल	4,310,847.00
अन्य देय	राशि (रु)
राजेश बंसल	510,196.00
हरीश रहेजा	344,596.00
सुरेश कुमार	311,583.00
एन आर आई छात्रों को वजीफा	300,000.00
चिकित्सा व्यय देय	29,000.00
संकाय डेवलपमेंट फंड	1,263,374.00
एन सी एच एम सी टी	31,600.00
बाहरी असाइनमेंट	405,072.00
कुल	3,195,421.00
अन्य अग्रिम	राशि (रु)
गोयल फैसी पोशाक	10,000.00
कुल	10,000.00

**INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING AND NUTRITION
PUSA, NEW DELHI-110012**

(SPONSORED BY THE MINISTRY OF TOURISM, GOVT. OF INDIA)

**AFFILIATED TO NCHMCT, NOIDA AND INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN
UNIVERSITY, NEW DELHI**

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2021 - 2022

1.0 BRIEF HISTORY AND INTRODUCTION

- 1.1** The Institute of Hotel Management, Catering & Nutrition, Pusa, New Delhi, is an autonomous registered Society which was set up in 1962. It is one of the premier institutes set up by the Central Government. It is the first HACCP certified Institute in the country. The first & the only Institute having ISSN journal (ISSN- 2395020X).
- 1.2** The Institute made a humble start in a small building in 1962. It shifted to the existing campus consisting of teaching block, hostels and staff flats in 1967-68. Additional teaching block was added in 1986-87.
- 1.3** Contribution: The Institute has, over the years, turned out more than thousands trained personnel, many of whom are leading lights of hospitality industry and training institutes. The Institute imparts education and training to over 1000 students every year. Students from various developing and neighbouring countries vie for enrolment at Institute of Hotel Management, Pusa, New Delhi. The Institutes has also trained in the field of hotel management, key faculty and hotel executives from Russia, Kazakhstan, Mauritius, Maldives, Kyrgyzstan, Tajikistan and Republic of Syria under ITEC programme of Ministry of External Affairs. Having attained credibility on International platform, the Institute is poised for leadership in Southeast and Central Asia in the field of hospitality education.
- 1.4** To keep pace with the latest trends in Hospitality education, the curriculum & Syllabus is constantly updated keeping in view of industry needs.

2.0 PATTERN OF MANAGEMENT/BOARD OF GOVERNORS

- 2.1** The Institute is managed by an autonomous society registered under the Societies Registration Act, 1860. The Composition of the society is indicated. Representatives of the Ministries/Department

of Tourism, Education, Finance, National Council for Hotel Management, Govt. of NCT and experts in the field of Hotel Industry are on its Board of Governors with Additional Secretary, Ministry of Tourism, and Government of India as its Chairman.

- 2.2** The day to day administration of the Institute is vested with the Principal, who is also Member-Secretary of the Board of Governors. He works under the overall supervision and guidance of the Board of Governors. The Principal is assisted by an Administrative Officer and a team of qualified and experienced faculty and other operational and administrative staff.

3.0 COURSES OF STUDY:

- 3.1** During the year under report the five full time professional courses recognised by the National Council for Hotel Management & Catering Technology are conducted:

- (a) **M.Sc. (HOSPITALITY ADMINISTRATION)** The two years full time Post-Graduate Degree Programme (four semesters) is implemented by IGNOU and National Council for Hotel Management.
- (b) **B.Sc. (HOSPITALITY AND HOTEL ADMINISTRATION)** This is a comprehensive training programme aimed at providing Managers, Supervisors, and Senior Executives to Hotels, Restaurants, Flight Kitchens and other Catering Establishments.
- (c) **1 ½ YEAR DIPLOMA IN FOOD AND BEVERAGE SERVICE.**
- (d) **1 ½ YEAR DIPLOMA IN BAKERY AND CONFECTIONERY.**
- (e) **1 ½ YEAR CRAFTSMANSHIP COURSE IN FOOD PRODUCTION AND PATISSERIE.**

- 3.2** Besides the above, the institute organises short term skill certification courses.

4.0 ADMISSION PROCEDURE

- 4.1** Admission to M.Sc. Hospitality Administration is granted on the basis of a Joint Entrance Examination and based on performance in written test candidates are shortlisted for centralised counselling by National Council for Hotel Management and have completed their B.Sc. in Hospitality & Hotel Administration or Diploma in Hotel Management from NCHMCT or any other Degree + Diploma in Hotel

Management from NCHMCT with minimum two years work experience. There are 50 seats in the institute.

- 4.2** Admission to FIRST YEAR of B.Sc.(HOSPITALITY AND HOTEL ADMINISTRATION) is granted on the basis of a Joint Entrance Examination and based on performance in written test candidates are shortlisted for centralised counselling by National Council for Hotel Management. Candidates should have passed the +2 stage of 10+2 system or equivalent examination in any academic stream with English as a compulsory subject. Upper age limit is 25 years, which is relax able upto 28 years in case of candidates belonging to SC/ST categories. The 15% seats reserved for SC candidates, 7.5 % seats reserved for ST candidates, 27% seats reserved for OBC (NCL) candidates as per the Central List, 10% seats reserved for General EWS candidates , Reservation for Kashmiri Migrant (subject to notification from Ministry for Education) & 5% Reservation for PWD (with 40% disability) candidates.
- 4.3** For admission to CRAFTSMANSHIP COURSE IN FOOD PRODUCTION, & PATISSERIE the candidates should have successfully completed 10th class of 10+2 pattern or an equivalent qualification with English as compulsory subject. The upper age limit is 25 year as on 1st July relax able up to 28 years in case of SC/ST candidates. The 15% seats reserved for SC candidates, 7.5 % seats reserved for ST candidates, 27% seats reserved for OBC (NCL) candidates as per the Central List, 10% seats reserved for General EWS candidates , Reservation for Kashmiri Migrant (subject to notification from Ministry for Education) & 5% Reservation for PWD (with 40% disability) candidates.
- 4.4** For admission to DIPLOMA IN FOOD & BEVERAGE SERVICE the candidates should have successfully completed Senior Secondary or equivalent qualification with English as a compulsory subject. The upper age limit is 25 years as on 1st July relax able up to 28 years in case of SC/ST candidates. The 15% seats reserved for SC candidates, 7.5 % seats reserved for ST candidates, 27% seats reserved for OBC (NCL) candidates as per the Central List, 10% seats reserved for General EWS candidates , Reservation for Kashmiri Migrant (subject to notification from Ministry for Education) & 5% Reservation for PWD (with 40% disability) candidates.

4.5 For admission to DIPLOMA IN BAKERY AND CONFECTIONERY, the candidates should have successfully completed Senior Secondary or equivalent qualification with English as a compulsory subject. The upper age limit is 25 year as on 1st July, relax able up to 28 years in case of SC/ST candidates. The 15% seats reserved for SC candidates, 7.5 % seats reserved for ST candidates, 27% seats reserved for OBC (NCL) candidates as per the Central List, 10% seats reserved for General EWS candidates , Reservation for Kashmiri Migrant (subject to notification from Ministry for Education) & 5% Reservation for PWD (with 40% disability) candidates.

5.0 ACADEMIC PROGRESS

Statement of results for the year 2021-2022 is given below:-

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION, PUSA, NEW DELHI-12 STUDENT'S PROGRESS DATE FOR THE ACADEMIC SESSION 2021-2022

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING & NUTRITION, PUSA, NEW DELHI - 12

ACADEMIC PERFORMANCE FOR THE SESSION 2021-2022

S.No	Course	Appeared		Result	Appeared		Result
		Odd Sem	Passed		Even Sem	Passed	
1	B.Sc (HHA) 1st & 2nd Semester	304	304	100%	304	299	98.35%

S.No	Course	Appear	Pass	Result
2	B.Sc (HHA) 3rd & 4th Semester (2 nd Year)	258	250	96.89%

S.No	Course	Appeared		Result	Appeared		Result
		Odd Sem	Passed		Even Sem	Passed	
3	B.Sc (HHA) 5th & 6th Semester	240	239	99.58%	242	241	99.58%
4	CCFP 1st & 2nd Semester	99	97	97.97%	99	97	97.97%

S.No	Course	Annual Result					
					Appeared	Passed	Result
5	Diploma in Bakery & Confectionary				76	75	98.58%
6	Diploma in Food & Beverage Service				36	36	100%

6.0 EXAMINATIONS

National Council for Hotel Management Catering and Technology, Noida and IGNOU Conduct the annual Exams.

7.0 PLACEMENT

The Institute hosts campus placement in college .In the previous academic session, the B.Sc. (HHA) students were offered management and executive levels. We have clocked placement percentage of 85.47% in the testing time of Pandemic. The various sectors that came for the campus QSRS, E-

Commerce, Hotels, Retails and many more. The average package was Rs. 4.4-5.0LPA and Highest package was Rs. 7.8 LPA.

8.0 RIGHT TO INFORMATION ACT

8.1 The detail of RTI Act, 2005 for further reference is available on the website of Institute i.e. www.ihmpusa.net. The authorities of the Institute under the Act are as under.

1. Sh. Kamal Kant Pant, Principal Appellant Authority
2. Sh. Umesh Kumar Agarwal, Admin. Officer CPIO
3. Ms. Manju Bala, Office Superintendent APIO

8.2 RTI Annual Return Information System (2021-2022).

Annual Return Form Institute of Hotel Management, Catering & Nutrition, Pusa, New Delhi-110012.

Year: 2021-2022 Insert Mode (New Return)

Progress in 2021-2022													
	Opening Balance as on beginning of 1 st quarter (Apr-20 June-20)	No. of Applications received as transfer from other Pas u/s 6(3)	Received during the quarter (Including cases transferred to other pas)	No. of cases transferred to other pas u/s 6(3)	Decisions where requests/appeals rejected	Decision where requests/appeals accepted							
Requests	0	25	05	0	0	30							
First Appeals	N/A	0	0	N/A	0	0							
No. of Cases where disciplinary action taken against any officer													
No. of CAPIO's designated				No. of ACPIO's designated				No. of AA designated					
1				1				1					
No. of time various provisions were invoked while rejecting requests													
Relevant Sections of RTI Act 2005													
section 8(1)										Sections			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	Other
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount of Charges Collected (in Rs.)													
Registration Fee Amount				Additional fee & Any other charges				Penalties Amount					
50				-				-					

9.0 Capacity Building for Service Providers (Session 2021- 2022)

As part of the Suo-Motu initiatives of the Ministry of Tourism under the Scheme of “Capacity Building for Service Providers”, the Institute of Hotel Management Catering and Nutrition Pusa, New Delhi has implemented the following programs.

9.1 Hunar Se Rozgar Tak (HSRT)

Hunar se Rozgar Tak program is aimed at training people with not much means and in need to acquire skills facilitative to employment. This course is fully funded by the Ministry of Tourism, Government of India. It can be pursued by anyone with minimum 18 years of age possessing the minimum educational qualification respective to the course.

As per the Hunar se Rozgar Tak guidelines the following courses can be offered under this program by the Institute.

Name of Course	Minimum Educational Qualification required	Duration of Training (by Training Provider + On-the-Job Training (OJT)	Job Role mapped to Qualification Pack No.	Stipend/Incentive paid on successful completion of the program
Multi Cuisine Cook	8th Class Pass	740 Hours (500 Hours + 240 Hours OJT)	QP:THC/Q3006	Rs. 2000/-
F & B Service - Steward	10th Class Pass	540 Hours (300 Hours + 240 Hours OJT)	QP:THC/Q0301	Rs. 1500/-
Room Attendant	5th Class Pass	540 Hours (300 Hours + 240 Hours OJT)	QP:THC/Q0202	Rs. 1500/
Front office Associate	12th Class Pass	580 Hours (340 Hours + 240 Hours OJT)	QP: THC/Q0102	Rs. 1500/
Laundry Machine Operator	8th Class Pass	480 Hours (240 Hours + 240 Hours OJT)	QP: THC/Q0205	Rs. 1500/
Kitchen Steward	5th Class Pass	440 Hours (200 Hours + 240 Hours OJT)	QP: THC/Q0401	Rs. 1500/
Home Delivery Boy	8th Class Pass	440 Hours (200 Hours + 240 Hours OJT)	QP: THC/Q2902	Rs. 1500/
Traditional Snack & Savory Maker	8th Class Pass	240 Hours	QP: FIC/Q8501	Rs. 1500/

The figures of HSRT - Year 2021-22

S.No.	Stream in which HSRT was run	Target Received	No. of Person trained
1	Front office Associate	120 (HSRT) + 60 (Destination Based Training Program) in any stream	11
Total			11

9.2 Skill Testing Certification (STC)

The STC – Skill Testing and Certification Program is aimed at Re-skilling / Skill up gradation of persons already employed / engaged in hospitality related occupations in Food Production, Food & Beverage Service and Housekeeping Utility.

The Course Duration is of 06 days of eight hours per day which includes orientation for 5 days in the respective trades followed by the skill testing on the 6th day. The candidate is paid a lump sum incentive / stipend of Rs 1800/- towards wage loss.

The figures of STC - Year 2021-22

S.No.	Stream in which STC was run	Target Received	No. of Person trained
1	NIL	120 (HSRT) + 60 (Destination Based Training Program) in any stream	NIL
Total			NIL

9.3 Entrepreneurship Program

The aim of the Entrepreneurship Program to facilitate self employment to the candidates enrolled. These are short courses of 150 hour duration each and can be offered in the following trades

1. Cook- Tandoor
2. Barman
3. Baker
4. Homestay – Multi Skilled caretaker
5. Halwai – Indian sweets

The figures of EP - Year 2021-22

S.No.	Stream in which EP was run	Target Received	No. of Person trained
1	NIL	30 (HSRT) + 60 (Destination Based Training Program) in any stream	NIL
Total			NIL

AWARDS AND ACHIEVEMENTS

- **THE WEEK** ranked the Institute of Hotel Management, Pusa, New Delhi as the number 1 Institute of Hotel Management in their annual ranking of various institutes and colleges in the country since the year 2011 to date.
- **THE OUTLOOK** ranked the Institute of Hotel Management, Pusa, New Delhi as the Best Professional College since 2013 among Hotel Management Institute across India.
- **INDIA TODAY** ranked the Institute of Hotel Management, Pusa, New Delhi as the Number 1 Institute of Hotel Management in their annual ranking of various Institutes and colleges in the country for the year 2016 to date.
- **GHRDC** magazine consecutively for the last 4 years since 2018 ranked IHM Pusa, as number one in the annual ranking of Hotel Management Institutes across India.
- **TRAS – Think Responsible Act Sustainable-** IHM, Pusa initiated TRAS (Think Responsible Act Sustainable) and continue creating awareness amongst youth for sustainable consumption of essential resources like food, energy, water, and finance.

S.No.	WORKSHOP & EVENTS
1	Success Management
2	"The Finishing Touch"
3	Managing change and challenges in the organization
4	Staying Optimistic in Tough Times
5	A Day in the life of a Revenue Manager - His Journey, Struggles and Achievements
6	Re-engineering in the manpower requirement post covid in the hospitality industry
7	Strategies adopted post covid in Kitchen and Food & Beverage department
8	Future of vegetarian food
9	Hospitality Design Surfaces and Career Opportunities in Housekeeping
10	Expert Inputs on Cloud Kitchen
11	Life of a Freedom Fighter – Udham Singh
12	Strategies to promote tourism in Sikkim Ek Bharat Shreshta Bharat

13	Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution, 2004 (PIDPI)
14	Korean Cuisine Workshop
15	Guest Lecture on the promotion of the language of Sikkim
16	Webinar - A culinary walk through Sikkim Cuisine
17	Hindi Language promotion workshop
18	Tann and Mann ki Swatchhta
19	Workshop on Health and Environment
20	Boot Camp for India Skills Competition
21	Vigilance Week
22	Communal Harmony Week
23	Hindi Pakwada
24	Swachtaa Pakwada
25	Fruit Soaking Ceremony
26	Ekta Diwas Celebration
27	Constitution Day Celebration
28	Republic Day Celebration
29	Independence Day Celebration
30	Teacher's day Celebration
31	International Women's Day Celebration
32	International Yoga Day Celebration

BOARD OF GOVERNORS OF IHM PUSA

	Secretary (Tourism) Ministry of Tourism, Government of India Chairperson I.H.M Pusa, New Delhi	
Representing Government of India		Representing State Government of Delhi
Financial Advisor-cum Addl. Secretary Ministry of Tourism Govt. of India		
ADG (T) Ministry of Tourism, Govt. of India		Secretary, Department of Tourism Govt. of NCT Delhi
Regional Director Tourist Office, Ministry of Tourism Govt. of India		Director, Technical Education, Govt. of NCT Delhi
Deputy Education Advisor Ministry of HRD Govt. of India		Labour, Commissioner, Govt. of NCT Delhi
Director (Studies) NCHMCT, New Delhi		Registrar, Board of Technical Education Govt. of NCT Delhi
	Representing Industry	
	Mr. Vijay Dutt (Member)	
	Mr. Manjit Singh Gill (Member)	
	Mr. Saeed Shervani (Member)	
	Principal / Secretary	

**INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING & NUTRITION,
PUSA, NEW DELHI -110012
STAFF STRENGTH FOR THE YEAR 2021 – 2022**

POST	SANCTIONED	FILLED IN	VACANT
PRINCIPAL	1	1	--
HOD	3	3	--
SR. LECTURER	6	5	--
LECTURER	9	6 (Regular) 1(contractual)	3
ASST. LECTURER	14	3(Regular) 1(contractual)	11
TEACHING ASSOCIATES	--	3	--
A.O	1	1	--
O.S	1	1	--
ACCOUNTANT	1	1	--
UDC/STOREKEEPER/CASHIER	6	4	2
LDC	8	5 (Outsource)	8
LIBRARIAN	1	1	--
P.A TO PRINCIPAL	1	--	1
STENOGRAPHER	1	-	1
FOREMAN	1	1 (Outsource)	1
DRIVER	1	-	1
SKILLED SUPPORT STAFF	2	2	--
LAB. ASS./ATTENDANT	6	5	1
ELECTRICIAN	1	1	--

PART - II
(Audited Accounts)

(A) BALANCE SHEET AS AT 31-03-2022 WITH AUDITOR'S REPORT

(B) INCOME & EXPENDITURE FOR 2021-22

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION
Library Avenue, PUSA Complex, PUSA, New Delhi

BALANCE SHEET AS AT 31 March 2022

CORPUS/CAPITAL FUND & LIABILITIES	Schedule	As at 31.03.2022	As at 31.03.2021
Corpus/Capital Fund	1	164,560,221	156,391,951
Reserves & Surplus	2	1,732,886	(4,226,570)
Earmarked / Endowment Fund	3	32,144,972	20,357,997
Secured Loan and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loan and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities & Provision	7	51,093,056	37,063,576
TOTAL (A)		249,531,135	209,586,954
ASSETS			
Fixed Assets	8		
Gross Block		173,373,854	140,538,512
Less: Depreciation		80,682,475	69,964,427
Net Block		92,691,379	70,574,085
Work In Progress:-			
Investment - Earmarked/Endowment Fund	9	1,124,310	24,457,810
Investment - Other	10	1,550,000	350,000
Current Assets, Loans & Advances	11	-	-
		154,165,446	114,205,059
TOTAL (B)		249,531,135	209,586,954
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	25		

For Institute Of Hotel Management, Catering & Nutrition

For R Niwas Aggarwal & Co

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 003253N

CA CHANCHAL AGGARWAL

Partner

Membership No.: 502926

Place: New Delhi

Date: 25/08/2022

UDIN NO-22502926ASQJYR1056

(Principal)

(Administrative Officer)

(Accountant)

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION
Library Avenue, PUSA Complex, PUSA, New Delhi
Statement of Income and Expenditure 31 March 2022

Particulars	Schedule	For the year ended	For the year ended
		31.03.2022	31.03.2021
A. INCOME			
Income From Sales/ Services	12	1,454,862	797,908
Grants/ Subsidies	13	-	-
Fees/ Subscriptions	14	120,270,835	104,096,968
Income From Investments	15	32,434	34,967
Income From Royalty, Publication Etc.	16	1,059,324	1,077,124
Interest Earned	17	5,103,034	2,390,584
Other Income	18	1,002,358	1,274,744
Increase/(Decrease) In Stock In Finished Goods & Work In Progress	19	-	-
Total (A)		128,922,847	109,672,295
B. EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	92,188,006	81,064,966
Other Administrative Expenses Etc.	21	20,071,337	11,546,986
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		NIL	NIL
Interest	23	NIL	NIL
Total Expenditure before depreciation (B)		112,259,343	92,611,952
Balance being Surplus/(deficit) of Income over Expenditure before depreciation (A-B)		16,663,504	17,060,343
Depreciation during the year	8	10,718,048	10,515,260
Balance being Surplus/(deficit) of Income over Expenditure after depreciation (Less) /Add : Prior Period items	22	5,945,456 (14,000)	6,545,084 88,054
Balance Being Surplus/(Deficit) carried to Surplus from Income & Expenditure A/C		5,959,456	6,457,030
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	25		

For Institute Of Hotel Management, Catering & Nutrition

For R Niwas Aggarwal & Co
Chartered Accountants
 Firm Registration No.: 003253N

CA CHANCHAL AGGARWAL
 Partner
 Membership No.: 502926

Place: New Delhi
 Date: 25/08/2022

UDIN NO-22502926ASQJYR1056

(Principal) (Administrative Officer) (Accountant)

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2022				
Schedule 1 - Corpus / Capital Fund	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
	156,391,951	155,142,378	-	156,391,951
Balance at the beginning of Year	-	-	-	-
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund ##	8,168,270	1,249,573	-	-
Grant In Aid-Capital (Building)	-	-	-	-
Add (Deduct) Balance of Net Income Transferred from the Income and Expenditure Account	-	164,560,221	-	-
Balance at the year end.		164,560,221		156,391,951.00
## Non recurring grant received from the government towards addition of infrastructure (Building, Plant and Machinery, etc.) has not been utilised and which shall be adjusted on the capitalisation of the asset, created out of the fund.				

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022				
Schedule 2 - Reserves & Surplus	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
	(4,226,570)	(10,683,600)	(10,683,600)	(4,226,570)
1. Surplus/ (Defect) from Income & Expenditure Account	5,959,456	6,457,030	6,457,030	(4,226,570)
Balance at the beginning of the year				
Add/ Less: (Defect) /Surplus during the year				
Balance at the year end.		1,732,886		(4,226,570)
Total		1,732,886		(4,226,570.00)

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022					
Schedule 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS :		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1 Central Government			-		-
2 State Government (Specify)			-		-
3 Financial Institutions					
a) Term Loans		-		-	
b) Interest accrued and due		-		-	
4 Banks :					
a) Term Loans					
- Interest accrued and due		-		-	
b) Other Loans (Specify)					
- Interest accrued and due		-		-	
5 Other Institutions and Agencies					
6 Debentures and Bonds			-		-
7 Others (Specify)			-		-
TOTAL			NIL		NIL

Schedule 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS :					
		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1 Central Government			-		-
2 State Government (Specify)			-		-
3 Financial Institutions			-		-
4 Banks :			-		-
a) Term Loans			-		-
b) Other Loans (Specify)			-		-
5 Other Institutions and Agencies			-		-
6 Debentures and Bonds			-		-
7 Fixed Deposits			-		-
8 Others (Specify)			-		-
TOTAL			NIL		NIL

Schedule 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES :					
		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1 Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets			-		-
2 Others			-		-
TOTAL			NIL		NIL

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022				
Schedule 7- Current liabilities & Provisions		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors				
- for Goods		-	-	-
- for others		4,310,847	4,310,847	1,963,831
3. Advances received & Deposits				
- College Caution Fee		10,351,830		9,511,330
- Hostel Caution Fee		1,367,890	11,719,720	11,128,720
4. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loans / borrowings		-		-
b) Unsecured Loans / borrowings		-		-
5. Statutory Liabilities (GIS, GPF, ESIC, EPF)				
a) Overdue				
b) Others				
- GIS		35		104
- N.P.S.		168,276		151,704
- G.P.F.		69,800		52,300
- TDS Payable		467,185		324,739
- GST		97,829	803,125	79,145
6. Other Current Liabilities				607,992
- Salary Payable		2,640,457		2,361,629
- Pension Payable		1,948,430		1,798,049
- CPF		4,620		4,280
- Payable to Students/Staff (List enclosed)		109,910		862,500
- Audit Fee / Professional Charges Payable		54,000		60,775
- Scholarships		285,480		486,380
- Payable To Gpf-Cpf Trust		36,873		27,684
- Fund for Leave Encashment And Gratuity		18,893,349		8,210,043
- Ministry of Tourism				-
- Expenses Payable				
- Bill Expenses payable		232,108		359,978
- Stipend Payable		2,251,500	26,456,727	2,251,500
- PHIMA Association(FD Pre-Mature and Create VS Dutta Memorial Award)				16,422,818
- Narula Foundation Fund				100,000
- V D Kothari Memorial Gold Medal			200,642	200,000
- Dr Ankur Bhatia Memorial Award			51,594	50,000
- V S Datta Memorial Award			1,006,563	-
- Performance Security			300,000	-
- Other Payables (List Enclosed)			2,313,386	2,519,047
- Other Current Liability (Suspense)			3,195,421	3,300,171
			735,032	770,999
TOTAL			51,093,056	37,063,576

Schedule - 8 - FIXED ASSETS

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION
Library Avenue, PUSA Complex, PUSA, New Delhi
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2022

Sl. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Gross block			Depreciation			Net Block	
			Cost / Value at the beginning of the Year	Addition during the Year	Deduction during the Year	Cost / Value at the year end	At the beginning of the Year	For the Year	As at the Current Year END	As at the Previous Year END
		%	1	2	3	4	5	6	7	4 - 7
			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Land:									
a.	Freehold		-		-	-	-	-	-	-
b.	Leasehold		89,424		-	89,424	-	-	89,424	89,424
2	Building:									
a.	on freehold land		-		-	-	-	-	-	-
b.	on leasehold land	10%	41,574,062	-	24,045,456	65,619,518	17,215,571	3,638,122	20,853,693	24,358,491
3	Plant, Machinery & Equipment									
4	Vehicles	15%	38,500		-	38,500	21,417	2,562	23,979	14,521
5	Furniture & Fixtures	10%	8,974,812	-	-	10,582,430	4,537,299	524,132	5,061,431	5,520,999
6	Office Equipment	15%	6,484,857	33,600	-	6,717,703	5,773,330	126,712	5,900,042	817,661
7	Computers/ Peripherals	40%	12,821,703	127,962	-	13,037,497	12,780,583	85,199	12,865,782	171,715
8	Electrical Equipment	15%	2,086,055	82,078	-	2,238,102	1,827,044	56,411	1,883,455	354,647
9	Library Books	40%	60,685	12,203	-	76,036	51,386	9,231	60,617	15,419
10	Tubewell and Water Supply	15%	79,179	-	-	79,179	74,402	717	75,119	4,060
11	Other Fixed Assets:									
a.	Kitchen Equipments	15%	2,238,131	12,800	-	2,250,931	2,019,542	34,708	2,054,250	196,681
b.	Housekeeping Equipments	15%	-	-	-	64,555	-	4,842	4,842	59,713
c.	Audio Visual Equipment	15%	704,256	-	-	704,256	599,655	15,690	615,345	88,911
d.	Lab Equipment	15%	1,510,396	-	-	7,260,025	1,340,047	456,775	1,796,822	5,463,203
e.	Lift	15%	927,608	-	-	927,608	808,100	17,926	826,026	101,582
f.	Mobile Phone	15%	50,988	-	-	50,988	18,447	4,881	23,328	32,541
g.	Generator	15%	197,435	-	-	197,435	175,411	3,504	178,715	27,660
h.	Air Conditioner	15%	893,913	-	-	1,493,375	741,370	67,841	809,211	684,164
i.	CCTV	15%	302,747	-	-	302,747	205,692	14,558	220,250	152,543
j.	Heavy Equipment	15%	12,573,241	-	-	12,573,241	7,206,025	805,082	8,011,107	82,497
k.	Fire Fighting	15%	1,407,423	-	-	1,407,423	1,170,344	35,562	1,205,906	4,562,134
l.	Gas Fitting	15%	90,000	-	-	90,000	74,721	2,292	77,013	201,517
m.	Auditorium	10%	23,797,755	-	-	23,797,755	4,521,573	1,927,618	6,449,191	12,987
n.	R.O Purifier	15%	379,190	-	-	518,974	57,275	58,771	116,046	17,348,564
o.	Solar G	40%	1,445,191	-	-	1,445,191	924,922	208,108	1,133,030	402,928
p.	STP	40%	3,621,835	-	-	3,621,835	2,317,974	283,958	2,839,518	321,915
q.	WTP	40%	2,138,167	-	-	2,138,167	1,368,427	307,896	1,676,323	312,161
r.	DG Set	15%	4,344,524	-	-	4,344,524	1,205,605	470,838	1,676,443	782,317
s.	Electrical Installation	15%	9,445,968	-	-	9,445,968	2,621,256	1,023,707	3,644,963	1,303,861
t.	PNG gas pipe-lue	15%	2,260,467	-	-	2,260,467	307,005	293,019	600,024	461,844
12	Work In Progress:-									
	Rehabilitaon & Restoration of Building		19,056,547	-	24,045,456	-	-	-	-	769,740
	Equipment, Furniture fixtures and Others		5,401,263	738,448	8,112,309	1,124,310	-	-	-	3,138,919
Total			164,996,322	997,091	32,157,765	174,498,164	69,964,427	10,718,048	80,682,475	2,668,081
Previous Year			142,008,649	3,293,854	-	164,996,322	59,449,168	10,515,260	69,964,427	5,801,005
										1,660,443
										6824,712
										1,953,462
										19,056,547
										5,401,263
										93,815,689
										95,031,895
										82,559,481

Note: This is fifteenth year to charge the depreciation on fixed assets.

Note: * Addition to fixed assets during FY 2021-22 includes Rs 14000/- excess depreciation charged pertaining to FY 2019-20 & FY 2020-21 written back during the year.

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022				
Schedule 9: Investments from Earmarked And Endowment Funds	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
	1,550,000	1,550,000	350,000	350,000
1.) FDRs for Event supports(CANARA BANK FDR)				
TOTAL		1,550,000		350,000

Schedule 10: Investments - Others	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
		-		-
1. In Government Securities		-		-
2. Other Approved Securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		NIL		NIL

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022				
Schedule 11: Current Assets, Loans & Advances Etc.		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21
A. Current Assets		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1. Inventories				
a) Stores & Spares		-	-	-
- Prospectus, Training Material (Food Items, Text Books etc.)		-	-	-
b) Loose Tools		-	-	-
c) Stock -in-Trade		-	-	-
- Finished Goods		-	-	-
- Work-in-progress		-	-	-
- Raw Materials		-	-	-
2. Sundry Debtors				
a) Outstanding for a period exceeding six months		241,054	329,554	352,962
b) Outstanding for a period less than six months (Recoverable & considered good)		22,370	23,408	
3. Cash Balance		-	32,821	32,821
4. Bank Balances				
a) Deposits with Scheduled Banks:				
- FDR for specific purpose		45,000	45,000	
- FDR with Syndicate bank/Canara bank		113,883,631	73,000,000	73,045,000
- FDR with SBI		-	-	
b) Bank Balance with Scheduled Banks:				
- Canara Bank -91421010000841		9,237,048	2,511,411	
- State Bank of India		-		
-SB 10285163432		-	314,655	
-SB 10285163443		21,329,271	6,085,022	
-SB 30156657205		685,398	4,924,068	
-Current 35838495117		532,042	7,957,548	21,792,704
c) With non-Scheduled Banks:				
- in Current Account		-	-	
- in Deposit Account		-	-	
- in Saving Account		-	-	
5. Advance To employees		52,777	86,509	86,509
TOTAL (A)			146,028,590	95,309,996

Schedule 11: Current Assets, Loans & Advances Etc.(Contd.)	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	
B. Loans, Advances and other Assets			
1. Loans			
a) Staff (HBA, Car/Scooter, Cycle Adv, Festival & Fan Adv.)	-	-	-
b) Others (Students)	-	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received.			
a) On Capital Account	-	839,421	
-CPWD (CENTRAL WORKS DEPT)			
b) Receivable from Students			
- Fees receivable (Refer Schedule 24, para 6.1)	946,350	7,562,550	
- Other receivable from students	163,100	361,215	
c) Others			
- Security deposit	334,370	339,570	
- Other advances	10,000	704,927	
-Ministry of External Affairs	461,112	461,112	
- External Assignments	-	162,642	10,431,437
3. Income Accrued			
b) On Investments - Others	-	-	
c) On Loans & Advances	-	-	
d) Others (Interest on FDR)	4,138,297	4,138,297	4,906,424
4. Claims Receivable (TDS)			
Tax Deducted at Source on Rent/Interest for the F.Y. 2015-19	-	2,117,133	
Tax Deducted at Source on Interest for the F.Y. 2019-20	1,041,293	1,041,293	
Tax Deducted at Source on Interest for the F.Y. 2020-21	398,776	398,776	
Tax Deducted at Source on Interest for the F.Y. 2021-22	621,730	2,061,799	3,557,202
5. GST TDS REFUNDABLE / INTEREST ON TPDDL			
	21,827	21,827	-
TOTAL (B)		8,136,855	18,895,063
TOTAL (A+B)		154,165,446	114,205,059

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022				
Schedule 12: INCOME FROM SALES & SERVICES		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1. Income from Sales				
a) Sale of I. Card, Magazine & name badge		-		799,350
b) Sale of Fast Food at Bakery Shop		843,068	843,068	107,204
				906,554
2. Income from Services				
a) Professional & Consultancy Services		808,059	323,624	
- Less:- Expenses against consultancy (*) (Refer to Schedule 24 para 6 (ii))		422,082	385,977	(856,443)
b) Internet and Doctor Service to student		-	-	738,900
c) Other		225,817	225,817	8,897
TOTAL			1,454,862	797,908

The college undertakes consultancy projects for various agencies. During the financial year 2020-21 the expenses of Rs 11,80,067/- against consultancy services includes Rs. 9,60,178/- for (*) the previous year.

Schedule 13: GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1. Central Government	-		-
2. State Government	-		-
3. Government Agencies	-		-
4. Institutions/ Welfare Bodies	-		-
5. International Organisations	-		-
6. Other	-	-	-
TOTAL		-	-

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION
Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

Schedule 14: FEES/ SUBSCRIPTIONS	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
- Admission Fees	747,100		724,000	
- Tuition Fees *	99,673,905		91,678,446	
- Examination Fees	1,886,400		1,908,500	
- Institutional Fees	3,845,250		-	
- Operational Fees	-		1,122,000	
- Electricity & water charges from hostellers	648,000		-	
- Locker Fees	-		367,750	
- Room Rent Charges	6,906,250		-	
- Cookery Training Fees	-		2,907,500	
- Laundry charges	972,000		-	
- Fine from student	175,730		28,100	
- IGNOU Examination Fees	-		8,472	
- NCHMCT Examination Fees	5,416,200	120,270,835	5,352,200	104,096,968
TOTAL		120,270,835		104,096,968

* During the year 2021-22 Institute has recognised revenue on accrual basis except revenue from Fees/Subsription which is accounted on receipt basis, resulting in decrease in revenue amounting to Rs 71,69,900/-)

* During the year 2020-21 Institute has changed its Revenue Recognition policy from cash to accrual basis, resulting in increase in revenue amounting to Rs 75,62,550/-)

Schedule 15: Income from Investments (Income on Investments from Earmarked/Endowment Funds)	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1 Interest	-	-	-	-
- on Government Securities	-	-	-	-
- on Debentures / Bonds	-	-	-	-
2 Dividends on Mutual Fund Securities	-	-	-	-
- on Shares	-	-	-	-
- on Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3 Rent	-	-	-	-
4 Other	-	-	-	-
a) Interest received against the FDR (Narula Foundation)	12,236		18,203	
b) Interest received against the FDR (V.D KOTHARI MEMORIAL AWARD)	3,175		3,427	
c) Interest received against the FDR (V.S Dutta Memorial Award)	10,460		13,337	
d) Interest received against the FDR (Ankur Bhatia Memorial Award)	6,563	32,434	-	34,967
TOTAL		32,434		34,967

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION
Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

Schedule 16: INCOME FROM ROYALTY, RENT & PUBLICATION ETC.		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1	Income from Royalty	-	-	-	-
2	Income from Publications	-	-	-	-
3	Rental Income	238,056	255,856	255,856	1,077,124
	- Rent from PNB ATM	821,268	1,059,324	821,268	1,077,124
	- Rent from Reliance Infratel Ltd		1,059,324		1,077,124
TOTAL			1,059,324		1,077,124

Schedule 17: Interest Earned		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
1	On Term Deposits	4,597,917		2,156,079	
	a) with Scheduled Banks(Including last years Interest)	-		-	
	b) with Non-Scheduled Banks	-		-	
	c) with Institutions	-		-	
	d) TDS deducted on fdr on behalf of pf department	-	4,597,917	-	2,156,079
2	On Saving Accounts :				
	a) with Scheduled Banks	13,221		234,505	
	b) with Non-Scheduled Banks	-		-	
	c) Post Office Saving Accounts	-		-	
	d) Other (Interest on I T refund)	491,896	505,117	-	234,505
3	On Loans / Deposits				
	a) Employees/ Staff	-		-	
	b) Other	-		-	
4	On Capital Grants	-		-	
TOTAL			5,103,034		2,390,584

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022					
Schedule 18: Other Income		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
	- Sale of registration form	206,000		223,200	
	- Meals charges from staff	106,250		6,000	
	- Electricity Charge recovered from staff	156,703		181,497	
	- Outside Receipts From Laundry Services	49,980		49,161	
	- Income from external assignments	215,100		367,640	
	- Electricity Charge recovered from PNB	27,081		47,688	
	- Sale of log book	11,500		14,900	
	- Miscellaneous receipt	111,104		269,541	
	- Water Charges from Staffs	22,200		22,700	
	- Recovery of License Fees	96,440	1,002,358	92,417	1,274,744
	TOTAL		1,002,358		1,274,744
Schedule 19: Increase/(Decrease) in Stock in Finished Goods & Work in Progress		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
a)	Closing Stock				
	- Finished Goods	-		-	
	- Work -in - progress				
b)	Opening Stock				
	- Finished Goods	-	-	-	-
	- Work -in - progress				
	Net Increase/(Decrease) (a-b)		-		-
Schedule 20: Establishment Expenses		Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
		Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
a)	Salary & Wages	51,138,596		42,196,005	
b)	Contribution to NPS & Provident Fund	2,121,931		1,845,648	
c)	Staff aprons and uniforms	73,150		-	
d)	Expenses on Employee' Retirement Pension	24,170,821		21,778,675	
e)	Acadmic Expenses	1,351,400		910,258	
f)	Leave Encashment	9,158,106		7,847,633	
g)	Staff Medical Exp.	1,542,496		1,313,544	
h)	LTC	101,584		31,654	
i)	CGHS Exp.	511,722		459,273	
j)	Commuted Value	-		2,277,276	
k)	Gratuity	1,525,200		2,000,000	
l)	Children Education Allowance	459,000		405,000	
m)	Relocation Allowance	34,000	92,188,006	-	81,064,966
	Total		92,188,006		81,064,966

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION

Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

Schedule 21: Other Administrative Expenses Etc.

	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)		Amount(Rs.)	
a) Purchase (Expenses on Training Foods)	2,581,317		508,910	
b) Electricity and Power	4,701,630		4,337,081	
c) Water Charges	270,091		257,538	
d) Repairs and Maintenance (Building, Equipment & Others)	4,051,692		894,500	
e) Postage Charges	4,318		23,860	
f) Printing and Stationery	204,097		103,091	
g) Travelling and Conveyance Expenses	33,601		14,691	
h) Subscription Expenses (Periodical Magazine & News Paper)	30,080		13,685	
i) Computer & Other hardware expenses	318,490		271,842	
j) Auditor Remuneration	59,000		64,900	
k) Professional Charges	241,079		200,449	
l) Advertisement and Publicity	144,794		194,247	
m) Telephone & Internet expenses	116,736		1,185,540	
n) Purchase (bakery shop expenses)	569,401		52,489	
o) IGNOU examination expenses	-		1,000	
p) NCHMCT Examination expenses	4,248,734		1,692,447	
q) Other				
- Bank Charges	54,543		41,339	
- General Expenses	114,626		75,263	
- Hostel expenses	88,750		90,000	
- Annual Day Exp.	-		10,000	
- Cleaning Material	438,384		455,965	
- Fuel and Gas Consumed	163,364		19,214	
- Crockery and Glassware	269,776		10,000	
- Taxi Expenses	332,241		384,142	
- Property Tax	590,077		506,551	
- Sports & Recreation Expenses	49,310		18,820	
- Seminar workshop expenses	152,847		1,268	
- Horticulture expenses	104,755		2,710	
- Rajbhasa hindi expenses	43,000		60,030	
- Rates & Taxes	72,348		-	
- Covid Expenses	22,256		55,414	
Total	20,071,337		11,546,986	

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING & NUTRITION
Library Avenue, Pusa Complex, Pusa, New Delhi
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

Schedule 22: Prior Period items	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
A. Irrecoverable party balance of earlier years written off / Depreciation written back*		(14,000)		88,054
TOTAL	-	(14,000)	-	88,054

* Excess depreciation charged on fixed assets during the FY 2019-20 & FY 2020-21 written back during the year.

Schedule 23: Interest	Current Year 2021-22		Previous Year 2020-21	
	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)	Amount(Rs.)
a) On Fixed Loans		-		-
b) On Other Loans (Including Bank Charges)		-		-
c) On Others (Specify)		-		-
TOTAL		NIL		NIL

Institute of Hotel Management Catering & Nutrition
Library Avenue, Pusa, New Delhi

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS
AS AT MARCH 31, 2022

SCHEDULE 24: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention

The accounts have been prepared on accrual/cash basis under historical cost convention and as per accounting principles generally accepted in India.

2. Inventory Valuation

Inventory has been valued as per the Accounting Standard issued by The Institute of Chartered Accountants of India at lower of cost and realizable value. Inventories certified and valued by the Management of the Institute.

3. Investment

The Institute had made all of its Investment in Term Deposit.

4. Fixed Assets

i.) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive on inward freight, Duties and Taxes and incidental and direct expenses relating to acquisition.

ii.) Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than toward the Corpus fund), are capitalized at value stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. Depreciation

i.) Depreciation has been provided on written down value method as per rates Specified in the Income Tax Act, 1961.

ii.) Depreciation reserve as at 31.3.2022 is amounting to **Rs.8,06,82,475/-**

6. Revenue Recognition

i) During the year 2021-22, Institute has recognised revenue on accrual basis except revenue from Fees/Subscription which is accounted on receipt basis, resulting in decrease in revenue amounting to **Rs 71,69,900/-**. Expenses are being recognised on accrual basis.

ii) Interest from bank on saving account maintained for grants which is payable to M O T not considered as income & directly credited to amount payable to M O T.

iii) Interest on saving bank account of GPF/CPF trust on institute PAN has not been recorded & has not been shown as income in the Institute Books.

7. The loans & advances, receivable and current assets / current liabilities are subject to Confirmation & reconciliations.

8. Government Grants/ Subsidies

i.) Government grants of the nature of contribution towards capital cost of Setting up projects are treated as capital Reserve.

ii.) Government Grants/subsidy is accounted on realization basis.

9. Lease

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10.Retirement Benefits

- i.) Liability towards gratuity payable on death/retirement of the employees amounting to Rs 1,31,84,566 (as per actuarial report) as on 31st March, 2022 is not provided in the books of accounts.

For R Niwas Aggarwal & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 003253N

For and on behalf of

Institute Of Hotel Management, Catering & Nutrition

CA CHANCHAL AGGARWAL

Partner

Membership No.: 502926

(Principal)

**(Administrative
Officer)**

(Accountant)

Place: New Delhi

Date: 25/08/2022

UDIN No-22502926ASQJYR1056

Place: New Delhi

Date: 25/08/2022

Institute of Hotel Management Catering & Nutrition
Library Avenue, Pusa, New Delhi

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS
AS AT MARCH 31, 2022

SCHEDULE 25: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

- i) Claims against the institute not acknowledge as debt. Rs-NIL-(Previous year Rs-NIL)
- ii) In respect of
 - Bank guarantees given by/on behalf of the Institute Rs. NIL (Previous year Rs-NIL--)
 - Letter of credit opened by Bank on behalf of the institute Rs-NIL (Previous Year Rs.NIL-)
 - Bills discounted with banks Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL)
- iii) Disputed demands in respect of:
 - Income Tax Rs. 7,71,05,820 (plus accrued interest 46,26,348/-) (Previous Year Rs. NIL). Revised ITR is in process.
 - TDS defaults demand as on 31.03.2022 is Rs 1,07,248.95/- (Previous year – Rs 1,07,248.95).
 - Sales Tax Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL).
 - Municipal-Taxes Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL).
- iv) In respect from claims from parties for non-executive of order, but contested by Institute Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL)
- v) IHM is pursuing seven court cases with its former employees pending with Central Admn Tribunal/ District Court/ High Court. Liability against the outcome of these cases is yet to be concluded.

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executive on Capital Account and not provided for(net of advance) Rs. 1,26,48,602(Previous Year Rs. NIL).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rental under finance lease arrangements for Plant and Machinery amount to Rs. NIL (Previous Year Rs. NIL).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

- 1) In the view of there being no Taxable Income under the provisions of Section 12A of The Income Tax Act, 1961 being the expenditure is more than 85% of the Total Income, no provision for Taxation has been made.
- 2) TDS is deducted on Payment Basis.

- 6. Advance to executive engineer-CPWD amounting to Rs. 20,58,594/-(Previous year Rs 8,39,421) is outstanding as at year end for renovation and construction of capital assets.

7. TDS on interest on fixed Deposits of GPF/CPF trust deposited on institute PAN has been recorded in the Institute Books and is also recorded as payable to GPF/CPF trust. Whenever the amount will be realized from the revenue department it will be transferred to the respective fund.
8. Corresponding figures for the previous year (2020-21) have been regrouped/rearranged, wherever necessary.
9. The amounts are rounded off to nearest Rupee.
10. Schedule 1 to 25 are annexed to and from an integral part of the Balance Sheet As at 31.3.2022 and Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

*For***R. Niwas Aggarwal & Co**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 003253N

For and on behalf of
Institute Of Hotel Management, Catering & Nutrition

CA CHANCHAL AGGARWAL
Partner
Membership No.: 502926

(Principal)

**(Administrative
Officer)**

(Accountant)

Place: New Delhi
Date: 25/08/2022
UDIN No--22502926ASQJYR1056

Place: New Delhi
Date: 25/08/2022



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO

THE GOVERNING BOARD MEMBERS

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING AND NUTRITION

NEW DELHI, INDIA

Report on the Audit of Financial Statements

We have audited the accompanying Financial Statements of **INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING AND NUTRITION (IHM)**, which comprise the Balance Sheet as at **31st March, 2022**, the Statement of Income and Expenditure for the year ended on that date, and the notes to the Financial Statements including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "Financial Statements").

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Management of IHM is responsible for the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the IHM in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Indian Laws applicable to IHM for safeguarding its assets and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Indian Laws applicable to IHM, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the said Indian Laws and the Rules made there under.

We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

- 1) GST liability arising on rental income of Rs 4,10,634/- from Reliance tower for the period April 1, 2021 – Sep 30, 2021 has not been fulfilled. Amount due to be collected and payable during the year amounts to Rs 73,914/- which is not provided in the books.
- 2) Current assets/current liabilities are subject to confirmation, reconciliation and consequent adjustment, if any.
- 3) The Institute has maintained GPF and CPF funds (hereinafter called the Fund) for its employees as a Society as “Institute of Hotel Management Catering and Nutrition Delhi (Society) Contributory Provident Fund Trust”. The society has not obtained any recognition or approval from the appropriate authorities as per law to operate these two funds. The bank accounts are being maintained under PAN of the Institute. The Balance Sheet and Annexures thereto of the Fund as on 31st March 2022, have been taken on record and forms part of the Financial Reports of the Institute on certification by another auditor and has not been verified by us.
- 4) Adequacy of the carrying value of the assets in financial statements is not ascertainable as after the physical verification of fixed asset, Impairment testing of the assets is not carried out during the year.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effect of matters described in the basis of qualified opinion paragraph, the aforesaid financial statements, subject to basis of qualification and Note No 25 of the financial statements, give the information required by the Indian Law in the manner so required and give a true and fair view, in conformity with the accounting principles generally accepted in India,

- a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of IHM as at March 31, 2022 and ;
- b) In the case of Income and Expenditure Account of the surplus of Income over Expenditure.

Information Other than the Financial Statements and Auditor’s Report Thereon

The Society’s Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the Financial Statements and our auditor’s report thereon.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. We report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the IHM so far as it appears from our examination of those books.
- c) the Balance Sheet, the income and expenditure account and receipts and payments account, dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

For R Niwas Aggarwal & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. : 003253N)

CA CHANCHAL AGGARWAL
Partner
(Membership No 502926)

UDIN : 22502926ASQJYR1056

Place: New Delhi

Date: 25/08/2022

**INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT CATERING &
NUTRITION PUSA, NEW DELHI
ANNEXURES F.Y 2021-22**

AS ON 31.03.2022

SUNDRY DEBTORS	AMOUNT (RS)
ALLIANCE AIR INDIA	241,054
PUNJAB NATIONAL BANK	22,370
TOTAL	263,424

OTHER RECEIVABLE FROM STUDENTS	AMOUNT (RS)
SHUBHANGI VAID J&K BSC 1SEM ROLL NO-2041117326	63,050
TALHA RAUF ANSARI ROLL NO-1955117034	30,000
TUSHANT DALOTRA J&K BSc 1SEM ROLL NO-2041117327	50,150
SAMRAH AFAQUE (CCFP BATCH,2021-22)	19,900
TOTAL	163,100

AMOUNT PAYABLE TO STUDENTS	AMOUNT (RS)
EXCESS FEE REFUNDABLE TO STUDENTS	109,910
TOTAL	109,910

SUNDRY CREDITORS	AMOUNT (RS)
AGGAR SECURITY SERVICES PVT LTD	1,443,090
CPWD(CENTRAL PUBLIC WORKS DEPTT)	2,814,668
INDRAPRASHTHA GAS LTD	23,926
MUKHIJA TRAVELS	12,584
SHARMA PVC DOORS	16,579
TOTAL (A)	4,310,847

OTHER PAYABLE	AMOUNT (RS)
RAJESH BANSAL	510,196
HARISH RAHEJA	344,596
SURESH KUMAR	311,583
STIPEND TO NRI STUDENT	300,000
MEDICAL EXPENSE PAYABLE	29,000
FACUTY DEVELOPMENT FUND	1,263,374
NCHMCT	31,600
EXTERNAL ASSIGNMENTS	405,072
TOTAL	3,195,421

OTHER ADVANCES	AMOUNT (RS)
GOEL FANCY DRESSES	10,000
TOTAL	10,000

